



डीएम के आदेश पर राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य व भोला यादव पर एफआईआर दर्ज

2

आपकी आवाज

प्रमुख खबरें : दिल्ली ■ पटना ■ बक्सर ■ शाहाबाद ■ मगध

■ सारण ■ मिथिलांचल ■ चंपारण ■ पूर्वांचल ■ लखनऊ

छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में 7 नक्सली डेर

एजेंसी/रायपुर

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके में गुरुवार को सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में सात नक्सली मारे गए। जब मुठभेड़ हुई तब सुरक्षाकर्मियों की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान में लगी हुई थी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, एसपी प्रभात कुमार ने पुष्टि की कि माओवादी वर्दी में अब तक सात नक्सलियों को मार गिराया गया है। यह ऑपरेशन माओवादियों की इंद्रावती एरिया कमेटी और प्लाटून नंबर 16 के कैडेटों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था। ऑपरेशन में दत्तेबाड़ा, नारायणपुर और बस्तर जिलों के जिला रिजर्व गार्ड, बस्तर फाइटर्स और विशेष कार्य बल सहित विभिन्न राज्य पुलिस इकाइयों के कर्मी शामिल थे।



मुठभेड़ स्थल से सात हथियार बरामद किए गए हैं। इस घटना के बाद इस साल राज्य में सुरक्षा बलों के साथ अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे गए नक्सलियों की कुल संख्या 112 हो गई है। 10 मई को बीजापुर जिले के जंगलों में कम से कम 12 नक्सली मारे गए थे। 30 अप्रैल को नारायणपुर और ककरि जिले की सीमा पर मुठभेड़ में तीन महिलाओं समेत दस नक्सली मारे

एक इनामी समेत 10 गिरफ्तार

एसपी ने बताया कि 20 मई को सुकमा जिले के दुलेड गांव के जंगल में सुरक्षाबलों ने 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। नक्सल विरोधी अभियान के तहत रविवार को जिला बल, डीआरजी सुकमा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन के संयुक्त दल को दुलेड, बोडेलीग, रासापल्ली, पीनावंदा, ईरापल्ली और मेडामुडे गांव की ओर रवाना किया गया था। पकड़े गए नक्सलियों में मिलिशिया कमांडर माइवी बुस्का भी है जिस पर एक लाख रुपये का इनाम है। इन नक्सलियों के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास समेत कई अन्य मामले दर्ज हैं।

गये थे। इससे पहले 16 अप्रैल को सुरक्षा बलों ने ककरि जिले में मुठभेड़ के दौरान 29 नक्सलियों को मार गिराया था।

केमिकल कंपनी में बॉयलर फटने से 7 की मौत

- डोंबिवली के इंडस्ट्रियल एरिया के अंबर केमिकल कंपनी में हुआ हादसा
- बॉयलर फटने से लगी आग के कारण 48 लोग गंभीर रूप से हुए घायल
- धमाका इतना जोर था कि करीब 3 किमी दूर तक सुनाई दे रही थी आवाज

एजेंसी/मुंबई

डोंबिवली के इंडस्ट्रियल एरिया के अंबर केमिकल कंपनी में गुरुवार को बॉयलर फटने के बाद भीषण आग लग गई। इस घटना में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 48 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि धमाके की आवाज करीब 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आग लगने की घटना के तुरंत बाद



फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग की लपटों को देखते हुए उल्लासनगर, अंबरनाथ, ठाणे से दमकल की और गाड़ियां बुलाई गईं। घायल हुए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं, कैबिनेट मंत्री उदय सामत भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि धमाका इतना

आर्थिक सहायता की घोषणा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक जताया है।

जोरदार था कि इसकी आवाज करीब 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। धमाके की वजह से आस-पास की एक इमारत की छिड़कियों के शीशे टूट गए, जबकि आस-पास के कई घरों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। एक अधिकारी ने कहा कि यह हादसा कंपनी में बॉयलर फटने से हुआ। विस्फोट के पीछे की वजह फिलहाल तकनीकी खराबी बताई जा रही है।

पटियाला की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों पर जमकर बरसे

1971 में मोदी होता तो पाकिस्तान से करतारपुर साहिब लेकर रहता

- बोले- वोट उसे दें जो सरकार बनाए, वोट उसे दें जो विकसित पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो
- बोले- सत्ता के लिए इंडी गठबंधन किसी को भी धोखा दे सकते हैं

एजेंसी/पटियाला

पटियाला के पोलो ग्राउंड में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों पर जमकर बरसे। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में अपनी पहली रैली में मोदी ने कई भावनात्मक मुद्दों को छुआ। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया और बंटवारा भी ऐसा किया कि 70 साल तक हमें दूरबीन से करतारपुर साहिब के दर्शन करने पड़ते थे। पीएम मोदी ने कहा, जब 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई हुई, 90 हजार से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक सैंडर कर चुके थे, 90 हजार से ज्यादा सैनिक हमारे कब्जे में थे। मैं विश्वास से कहता हूँ, अगर उस समय मोदी होता, तो उनसे करतारपुर साहिब लेकर रहता, तब उन जवानों को छोड़ता। वो तो नहीं कर पाए, लेकिन मुझसे जितनी सेवा हो सकती मैंने की। आज करतारपुर साहिब आपके सामने है।

मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने लंगर को



टैक्स से मुक्त किया। पहले श्री हरमंदिर साहब में विदेशों से भक्त चंदा नहीं दे पाते थे। हमने इसके लिए नियमों में छूट दी। श्री फतेहगढ़ साहिब तो साहिबजादे के शौर्य और शाहदात का साक्षी रहा है। ये मोदी सरकार है, जिसने साहिबजादों के शौर्य के लिए समर्पित वीर बाल दिवस घोषित किया। अफगानिस्तान में हमारे सिख परिवार संकट में थे। हम सभी को सुरक्षित वापस लाए। हम गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को भी अंदर के साथ लाए। पीएम ने इंडी-गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये घोर सांप्रदायिक हैं, घोर जातिवादी हैं, घोर परिवारवादी हैं। सत्ता के लिए ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। एक तरफ आतंकवादियों को घर में चुसकर मारने का साहस है। दूसरी तरफ इंडी वाले हैं, जो आतंकवादियों के एकाउंटर पर आसू बहाते हैं

कागजी सीएम को दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने से ही फुर्सत नहीं

पीएम ने कहा कि पंजाब के लोगों ने खेती से लेकर उद्योगों तक में अपना योगदान दिया है लेकिन कट्टर भ्रष्टाचारियों ने पंजाब का हाल खराब कर दिया। यहां राज्य सरकार का आदेश नहीं चलता। यहां खनन माफिया का राज है। कागजी सीएम को दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने से ही फुर्सत नहीं है। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि जो अपने गुरु अना हजारे के साथ धोखा कर सकते हैं, जो दिन में 10 बार झूट बोलते हैं। वे पंजाब का भला नहीं कर सकते। पीएम ने कहा कि पंजाब में दिखावे के लिए दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख दंगों की दोषी पार्टी आमने-सामने लड़ने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन स्वच्छाई ये है कि पंजा और झाड़ू... पाटियां दो हैं, लेकिन दुकान एक ही है। मोदी ने कहा कि पंजाब

इंडी गठबंधन वालों के लिए वोट बैंक का तुष्टिकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य

पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन वालों के लिए अपने वोट बैंक का तुष्टिकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। बंटवारे से पीड़ित दलित, सिख भाई-बहनों को मोदी सीएम कानून के तहत भारतीय नागरिकता दे रहा है। ये लोग (इंडी गठबंधन) सीएम का विरोध करते हैं, सीएम के नाम पर दंगे कराए और ये आज भी कहते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो वे सीएम को रद्द कर देंगे। इनका काम ही लोगों को आपस में लड़वाना है। इसके लिए तमाम इशकंडे आनाने को तैयार हैं। इन्होंने लोगों से सवाल पूछा कि क्या बंटवारे के पीड़ित सिखों को भारतीय नागरिकता देना गलत है? उन्होंने कहा कि भाजपा किसान कल्याण को प्राथमिकता देती है। बीते 10 साल में पंजाब से गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीद हुई। 10 साल में हमने एमएसपी में बढ़ाई गुना वृद्धि की।

जानता है कि उसे अपना वोट बेकार नहीं करना है और आप तो जानते हैं कि वोट उसे दें जो सरकार बनाए, वोट उसे दें जो विकसित पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो, जो विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर चला हो और इसके लिए जरूरी है एक तरफ मोदी सरकार है, जिसने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। वहीं दूसरी तरफ, इंडी गठबंधन है, जो कहता है कि वो आपकी कमाई का आधा हिस्सा छीन लेगा। इंडी गठबंधन समाज को, देश को, बांटना चाहता है, लेकिन मोदी भारत को विकसित भारत बनाना चाहता है। इसलिए पंजाब के भाई-बहनों से मैं आशीर्वाद मांगने आया हूँ। देश के सामने एक तरफ भाजपा और एनडीए है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों का इंडी-गठबंधन है। इंडी-गठबंधन के पास ना नेता है ना नीयत है।

इंदिरा जी किसानों के लिए हरित क्रांति लेकर आई थीं वहीं मोदी जी काला कानून लेकर आए: सोनिया गांधी

एजेंसी/नई दिल्ली

दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित जनसभा में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने दिल्ली वासियों में भावुक अपील की है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई कम करेगा, महिलाओं को सशक्त करेगा और एक सुनहरे भविष्य में समता और बराबरी का भारत बनाएगा। सोनिया गांधी ने कहा, मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। उन्होंने आगे कहा कि यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। आपको इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है। आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई कम करेगा, महिलाओं को सशक्त करेगा और एक सुनहरे भविष्य में समता और बराबरी का भारत बनाएगा।

सोनिया गांधी ने कहा कि मैं आपसे अपील करती हूँ कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों को दिल्ली की सातों साठों पर भारी मतों से विजयी बनाइए। इससे पहले हरियाणा के पानीपत में कांग्रेस की राष्ट्रीय



महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान किसानों का देश है। इस देश की आत्मा में किसान हैं। इंदिरा गांधी जी आपके लिए हरित क्रांति लेकर आई थीं, जिससे किसान आत्मनिर्भर बने। वहीं, नरेंद्र मोदी आपके लिए काले कानून लेकर आए, जिसके खिलाफ आप महीनों तक दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी का एक भी नेता आपको देखने तक नहीं आया। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये महाभारत की धरती है। यहां से हमें भगवत गीता की सीख मिली है। इसने हमें अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ना सिखाया है। खेल का मैदान हो, जंग का मैदान हो या खेत-खलिहान हो.. हरियाणा के लोग अपना खून-पसीना लगाकर खूब मेहनत करते हैं।

मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा क्योंकि यह नजीर बन जाएगी: सीएम केजरीवाल

एजेंसी/नई दिल्ली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि यह नजीर बन जाएगी और बीजेपी नीत केंद्र सरकार को ममता बनर्जी और एम.के.स्टालिन सहित विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाने की खुली छूट मिल जाएगी जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा। केजरीवाल

को अदालत ने शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में एक जून तक की अंतरिम जमानत दी है और दो जून को तिहाड़ जेल वापस जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि वह जेल से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति के लिए अदालत का रुख करेंगे। बीजेपी केजरीवाल से उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रही है।

मुस्लिमों को 77 श्रेणियों में दिए गए आरक्षण को हाईकोर्ट ने किया निरस्त

कोलकाता। लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार की ओर से वर्ष 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने फैसले में अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक ओबीसी के तहत मुस्लिमों को 77 श्रेणियों में दिए आरक्षण व 2012 के कानून के तहत इनके लिए बनाई 37 श्रेणियों को निरस्त कर दिया।

छपरा गोलीकांड मामले में राबड़ी आवास पहुंची एसआईटी की टीम ने की पूछताछ

केटी न्यूज/पटना

छपरा गोलीकांड मामले में गुरुवार को रोहिणी आचार्य की मां और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर एसआईटी की टीम पहुंची। आवास में पहुंच कर पूछताछ की और अटॉर्निस रोस्टर किया चेक किया। सारण एसपी गौरव मंगल ने छपरा गोली कांड मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। एसआईटी की टीम



मामले की पड़ताल में जुटी है। रोहिणी आचार्य के साथ राबड़ी देवी के बांडीगाई वाले मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सम्राट चौधरी ने रोहिणी पर पूर्व सीएम का बांडीगाई लेकर घूमने का आरोप लगाया था।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी चंपारण में चुनावी जनसभा को किया संबोधित

माफिया और आतंकियों का इलाज केवल बुलडोजर है: योगी

केटी न्यूज/प. चंपारण

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का उद्देश्य मिलकर लड़ना और लूटना है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जनता एक स्वर से कह रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अबकी बार 400 पार। योगी ने कहा कि बीते 10 साल में हम सबने बदलते भारत को देखा है। उन्होंने कहा कि आज का भारत दुश्मनों के घर में घुसकर काम तमाम करता है। योगी आदित्यनाथ गुरुवार को रामगढ़वा में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी डॉ संजय जायसवाल के लिए जनता से वोट की अपील की।



जनसभा में बुलडोजर रहा सबसे आकर्षण का केंद्र: योगी ने कहा कि डॉ संजय जायसवाल एक उच्च शिक्षित चिकित्सक हैं। हम दोनों एक साथ सांसद थे। हम दोनों विकास के बारे में चर्चा करते थे। गरीब कल्याण की चर्चा करते थे। योगी ने जनसभा में मौजूद बुलडोजर को देखते हुए कहा कि यहां आने से

दो बार नए घर जाकर गलती की: नीतीश

केटी न्यूज/नावानगर

बक्सर संसदीय क्षेत्र के हाईस्कूल नवानगर खेल मैदान में गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने एनडीए उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के समर्थन में वोट करने की अपील की। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि वे भाजपा के साथ 2005 से साथ हैं। बीच में दो बार नए घर चले गए थे, जो गलती कर दिए थे। नए घर में सब गड़बड़ होने लगी थी। जिसके बाद पुराने घर

लौट आया हूँ। अब कहीं नहीं जायेंगे। उन्होंने एनडीए को हम लोग का संज्ञा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों को जब से मौका मिला बिहार के विकास के लिए कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि 2005 तक राज्य की स्थिति क्या थी, यह सभी को मालूम था। शिक्षा बहाल थी, स्वास्थ्य व्यवस्था बेपत्ती हो चुकी थी। लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। साल 2005 में पीएचसी में एक-दो मरीज आते थे, महीने में 35 मरीज इलाज के

लिए पीएचसी पहुंचते थे। पर अब पीएचसी में प्रति माह 11 हजार से अधिक मरीज पहुंचते हैं, और उनका बेहतर इलाज होता है। उन्होंने कहा पांचवीं कक्षा से बच्चों को पोषाक योजना, साईकिल योजना चलाया गया। बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए इंटर एवं बीए पास करने पर 25 एवं 50 हजार की स्कालरशिप देने का काम हम लोगों की सरकार ने किया है। सीएम ने पंचायत चुनाव में महिलाओं के आरक्षण देने का भी जिक्र किया।

पहले जो बुलडोजर यहां मंगाया गया है, यही माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज एक तरफ भाजपा और एनडीए देश का सम्मान बढ़ा रही है, सुरक्षा को मजबूत बना रही है। विरासत का सम्मान, विकास की योजनाओं के साथ ही गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन का उद्देश्य है मिलकर लड़ना और जीतकर लूटना। इन्हें लूटने की स्वतंत्रता कर्नाई नहीं देना है। बिहार को जिस अराजकता से जेडीयू और बीजेपी ने उबारना है उसे फिर से नहीं लाना है। योगी ने कहा कि बिहार में लालू जी कहते हैं कि ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे देना

चाहिए। यही बात कांग्रेस का मेनिफेस्टो भी कहता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से काटकर मुसलमानों को देना है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उबार रखा है। वहीं राहुल कह रहे हैं कि एक झटके में वह सबको गरीबी से उबार देंगे। उसके लिए वह हर एक की व्यक्ति की संपत्ति का सर्वे कराएँ और उसपर विरासत टैक्स लगाएँ। पूर्वजों की संपत्ति में से आधी संपत्ति लेकर उसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को बांटेंगे। योगी ने कहा कि विरासत टैक्स के बाद आपके घर के एक कमरे में जबरदस्ती किसी मुसलमान को दे दिया जाएगा।

GR

JGG FARM FOOD INDUSTRIES PVT. LTD

स्वाद प्यार का सहेहत परिवार का

Factory Address : Tiri, NH-107, PO- Tiri Dhanchoa- 852121
Saharsa (Bihar), Cont - +91- 8405903701|
www.grgroups.co.in | info@grgroups.co.in
CIN NO - U15549BR2017PTC035566

सुरक्षा कारणों से 25 मई तक छपरा में प्रशासन ने किया इंटरनेट सेवा बंद डीएम के आदेश पर राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य व भोला यादव पर एफआईआर दर्ज

- ◆ बोले सम्राट चौधरी... रोहिणी ने बूथ पर लोगों को भड़काने का काम किया है
- ◆ डीएम ने भोला यादव का चुनाव के दौरान रोहिणी आचार्य के साथ भ्रमण को बताया अवैध
- ◆ 25 मई को महाराजगंज में चुनाव प्रभावित न हो इसलिए इंटरनेट मीडिया लगाई गई रोक



पर चुनाव के दिन हुए हंगामा और मारपीट की घटना हुई थी। इस मामले को लेकर टाउन थाने में बड़ा तेलपा मोहल्ले के मनोज कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर फर्जी मतदान करने का दबाव बनाया। उनके साथ पूर्व एमएलसी भोला राय व 50 से अधिक लोग मौजूद थे। राजद समर्थक व रोहिणी आचार्य भद्वी-भद्वी गालियां देने लगे। इसके बाद रोहिणी ने जान मारने की धमकी दी और एक व्यक्ति के साथ मारपीट भी की। जिनका इलाज

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ। 25 मई तक इंटरनेट सेवा बंद छपरा में चुनावी हिंसा के बाद सारण जिले में इंटरनेट मीडिया पर लगाई गई थी जो अब 25 मई तक बढ़ा दी गयी है। पहले 23 मई तक ही था। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में महाराजगंज सीट पर होने वाले अगला चुनाव को देखते हुए यह फैसला किया गया है। आशंका जताई गई है कि महाराजगंज में होने वाले चुनाव में सारण के कुछ असांजिक तत्व इंटरनेट का इस्तेमाल आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार या अफवाह फैलाने में कर

सकते हैं। ऐसे में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट मीडिया पर रोक की अनुशंसा की गई। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने छपरा गोलिकांड पर छपरा गोलिकांड की जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी रोहिणी आचार्य पर आरोप लगाये हैं। उन्होंने कहा कि रोहिणी ने बूथ पर लोगों को भड़काने का काम किया है। वहीं, मीसा भारती पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वो पाटलिपुत्र में पुलिस बल लेकर घूम रही हैं। किस हिसाब से पुलिस बल लेकर घूम

रही है। डीएम के निर्देश पर सीओ ने भोला व रोहिणी पर दर्ज कराया एफआईआर छपरा गोलिकांड मामले में आरजेडी के स्टार प्रचारक भोला यादव पर अब तक सात प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 20 मई को छपरा में हुए मतदान केंद्र पर हंगामा मामले में 4 और 21 मई को हुए हिंसा में तीन प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सारण के डीएम अमन समीर ने आरजेडी के स्टार प्रचारक भोला यादव का चुनाव के दौरान रोहिणी आचार्य के साथ भ्रमण को अवैध बताया है। डीएम ने उनके खिलाफ सीओ के जरिए आचार्य संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है। वहीं इस मामले में एसआईटी ने बड़ा एक्शन लेते हुए राबड़ी देवी के आवास पहुंचकर कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। इस मामले में रोहिणी आचार्य समेत 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इनमें पूर्व एमएलसी भोला राय, प्रोफेसर योगेन्द्र यादव, अंगद कुमार यादव, दिलीप कुमार राय, मंगल राय, संजय चौरसिया व राहुल कुमार राय शामिल

बोले मुकेश सहनी...बीजेपी मतलब जुमलों और अमीरों की सरकार, गरीबों से कोई नाता नहीं

केटी न्यूज/पटना

लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। ऐसे में गुरुवार को महागठबंधन के कैडिडेट के लिए विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रियो मुकेश सहनी ने बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज मोतिहारी, सीवान, सारण, बेतिया, शिवहर और मुजफ्फरपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा जुमलों और अमीरों की सरकार है। इस सरकार को गरीबों से कोई मतलब नहीं है। युवा बेराजगार हो रहे हैं। भूखमरी के कगार पर जा रहे हैं। उससे कोई मतलब नहीं है। सरकारी कंपनियों को बंद करने के हर प्रयास किया जा रहा है। ताकि निजी कंपनियों को बोलबाल हो सके। वीएसएनएल जैसे कंपनी को बंद कर दिया गया। रिलायंस के जीओ को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह की सहायता व सुविधाएं दी जा रही है। यह सब कुछ आम जनता देख रही है। हर बड़े काम अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है। जबकी वह सभी काम सरकार अपने स्तर से करा सकती थी। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इन कंपनियों को लाभ दिया जा रहा है। ताकि यह चुनाव में भाजपा को समर्थन व धनराशि दें सके। सहनी ने मोतिहारी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सहनी ने स्थानीय सांसद को निशाने पर लेते हुए कहा कि 25 साल से यह यहां कुंडली मोरे बैठे हैं, यह न खुद जनता की समस्याओं को सुनते हैं और न ही खुद क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। चीनी कारखाना नहीं खुलने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे कहा थे कि वे चीनी



कारखाना शुरू करवाकर यहीं की चीनी से चाय पिपेरी, लेकिन यह वादा भी जुमला हो गया। इसके आगे चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप हमारी ताकत हैं आप चाहेंगे तो मैं दिल्ली में आपकी आवाज बनूंगा। उन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। चुनावी सभाओं में राजद नेता तेजस्वी यादव की उपस्थिति में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव नहीं संविधान बचाने की लड़ाई है। आज भाजपाके लोग गरीब को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। उधर, सहनी ने कहा कि दस साल पहले मोदी जी ने युवाओं, किसानों, गरीबों के लिए कई वादा किया थे, लेकिन आज एक भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम जहां रोजगार और महंगाई की बात कर रहे हैं तो यह जुमला पढ़ रहे हैं। उन्होंने इस सरकार को अमीरों की सरकार बताते हुए लोगों से इस सरकार को उखाड़कर फेंक देने की अपील करते हुए कहा कि आज जरूरत है कि हम अपनी सरकार बनाएं जो गरीबों का कल्याण करे। गरीबों के उथान के लिए प्रयास करेंगे।

बिना सूचना के गायब रहने वाले 27 हजार शिक्षकों का वेतन कटा

केटी न्यूज/पटना बिना सूचना के स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है और इसका परिणाम शिक्षकों के वेतन कटौती के रूप में सामने आ रहा है। पिछले 10 महीनों में 32,828 शिक्षकों के वेतन कटौती की अनुशंसा की गई है। वे शिक्षक औचक निरीक्षण के दौरान स्कूल में अनुपस्थित पाए गए हैं किंसे पाठक ने राज्यभर के सरकारी स्कूलों में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों का वेतन काटकर

अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। अब तक 32,828 शिक्षकों के वेतन कटौती की अनुशंसा की गई है। वहीं, बोले 10 महीनों में लगभग 27,000 शिक्षकों का वेतन कटा जा चुका है। यह कार्रवाई स्कूलों के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों पर की गई है। केके पाठक की सख्ती का असर पूरे राज्य में देखा जा रहा है, लेकिन वेतन कटौती के मामले में सबसे अधिक संख्या दरभंगा जिले की है। यहां 3,884 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है।

लालटेन छाप वाली गाड़ी से जेडीयू के रोड शो में पहुंचे खेसारी लाल यादव

केटी न्यूज/पटना वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट से एनडीए पटबंधन के जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा के पक्ष में खेसारी लाल यादव ने गुरुवार को चुनाव प्रचार किया। आरजेडी के चुनाव विन्द लालटेन छाप की फोटो वाली गाड़ी में बैठकर भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा के रोड शो में शामिल होने पहुंचे थे। शनिचरी थानाक्षेत्र स्थित

मुन्ना मोटानी फार्म हाउस से यह रोड शो शुरू किया था। इस रोड शो में सैकड़ों वाइक सवार और सैकड़ों की संख्या में कार सवार समर्थक शामिल हुए। इस दौरान भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव ने हाथ जोड़कर मतदाताओं से जदयू प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रोड शो में लौरिया विधायक विनय बिहारी भी मौजूद थे। खेसारीलाल ने एनडीए प्रत्याशी सुनील कुमार के पक्ष में रोड शो किया।

फंटे से झूली मिली नवविवाहिता की लाश

गोपालगंज गोपालगंज जिले कटैया थाना क्षेत्र के जमुनाहां टोला सिधरिया गांव में एक नवविवाहिता की लाश मिली है। बरामद शव को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर फांसी लगाकर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की पहचान जमुनाहा गांव निवासी अम्बास अंसारी की पत्नी खुशबू खातून के रूप में की गई है।

कुमार आयुषिडिक क्लिनिक
डा० अजित किशोर
M.B.B.S (N.M.C.H. Patna) M.D. (P.M.C.H. Patna)
Consultant Physician, Medical Officer (Bihar Govt.)
बिस्किटा पदाधिकारी अखिल भारतीय अस्पताल, कुमरौव
साती, पैट एवं गुण रोग विशेषज्ञ
सुमिया महिला कॉलेज से पूर्य, टैक्सनी गौड़, कुमरौव, मो-9122226720

बिहार के 54 शहरों के लिए पटना से चलेगी नई बसें

केटी न्यूज/पटना बिहार के अलग-अलग शहरों को सीधा राजधानी पटना से जोड़ने के लिए राज्य सरकार काफी तय्यारी से काम कर रही है। यही वजह है कि सड़कों के निर्माण करवाए जा रहे हैं और अब वाहनों की भी सुविधा को लेकर सरकार योजना बना रही है। ऐसे में अलग-अलग शहरों से राजधानी पटना को बेहतर करनेकेविद्यो देने के लिए नीतीश सरकार ने नई बसें चलाने का फैसला किया है दरअसल, पटना से राज्य के 54 शहरों के लिए नई बसें चलाने की योजना है। ये बसें चलाने के विभिन्न मार्गों और छोटे शहरों-कस्बों को जोड़ते हुए गंतव्य शहर तक चलेगी। इन रूटों पर बसों के परिचालन को लेकर रिक्रियों को



सार्वजनिक करने के बाद आगे की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। राज्य के 120 मार्गों पर नई बसें चलाने की योजना पर अमल शुरू हो गया है। इन मार्गों पर कुल 376 बसों की जरूरत है। मालूम हो कि राजधानी पटना से सम्बद्ध रूटों पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन, जरूरत के अनुसार इन मार्गों पर बसों का परिचालन नहीं हो पा रहा है।

लिहाजा, राज्य सरकार ने पटना से जुड़े मार्गों पर नई बसों का परिचालन शुरू करने की योजना बनाई है। पिछले दिनों समीक्षा के दौरान यह बातें सामने आई थी कि राजधानी आने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से यह योजना तैयार की जा रही है। सरकार की तरफ से

भागलपुर, बांका, पूर्णिया, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सीवान, खगड़िया, मधेपुरा, भभुआ, बेगूसराय, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज, मुंगेर, बेतिया, सासाराम, जयनगर, औरंगाबाद, नवादा के लिए नई बस चलाई जाने की योजना है। इसके अलावादेव, आदापुर, लौकहा, वीरपुर, डेहरी, लहेरियासराय, झंझारपुर, पाली, तेलपा, जमालपुर, मधवापुर, पिपरीन, बेला, परसौनी, कुनौली, अंधरामट, मधेपुर, विशुनपुर, सिकदा, अख्ता, भिड्डामांड, भिसुआ बाजार, रसियारी, गौह, सिकन्दरा, निर्मली, कुचाईकोट, साहरघाट, कटैया, पगड़ा, जन्दाहा, चेनारी, कोआकोल के लिए भी नई बस चलाई जाएगी। ये बसें बैरिया बस स्टैंड, फुलवारी बस टर्मिनल और गांधी मैदान से खुलेंगी।

S2 Mall
RERA REG NO. - BRERAP00017-4/200/R-111/2018
SCPL

ESCALATOR FOOD COURT SHOPPING
FINE DINE RESTAURANT KIDS ZONE MULTIPLEX

SHANTI CREATION PVT. LTD.
For Booking Contact : 9431019808, 9693777038
Reg H.O. : G-1, Vidya Vatika Apartment, East Boring Canal Road, Gorakh Nath Lane, Patna - 800001
E-Mail : shantcreationpvtltd@gmail.com | Web : www.scplpatna.in

CAMBRIDGE SCHOOL DUMRAON
HARNAHI ROAD, DUMRAON, BUXAR- 802119
Affiliated to C.B.S.E., Delhi, Up to (10+2)- Aff. No. 330723
A CO-EDUCATIONAL SCHOOL FROM NURSERY TO STD. XII
ADMISSION NOTICE FOR STD. XI (SCIENCE & COMMERCE STREAMS)

REGISTRATION & ADMISSION STARTED

ELIGIBILITY CRITERIA

- DIRECT ADMISSION with INTERVIEW FOR CLASS X (2024) PASS OUT STUDENTS OF CAMBRIDGE GROUP OF SCHOOLS with 80% MARKS for PCM, 70% for PCB and 80% for COMMERCE STREAM.
- ADMISSION TEST & INTERVIEW WILL BE CONDUCTED FOR THE STUDENTS OF OTHER SCHOOLS.

SCHOLARSHIP SCHEME

- CANDIDATES WITH 95% & ABOVE WILL BE GIVEN FULL FREESHIP (100% REBATE IN ADMISSION FEE AND MONTHLY TUITION FEE) FOR BOTH CLASSES XI & XII.
- CANDIDATES WITH 90% & ABOVE WILL BE GIVEN HALF FREESHIP (50% REBATE IN ADMISSION FEE AND MONTHLY TUITION FEE) FOR BOTH CLASSES XI & XII.

TOPPERS IN AISSCE (Std. XII)

1st SHAKSHI KUMAR 94.80%	2nd ANKIT RUMBA 92.60%	3rd SANJANA KUMAR 92.00%
--------------------------	------------------------	--------------------------

SUBJECTWISE HIGHEST MARKS

English - 97	Mathematics - 95	Accountancy - 95
Hindi Elective - 95	Biology - 96	Business Studies - 93
Physics - 95	Chemistry - 95	Economics - 94

TOPPERS IN AISSSE (Std. X)

1st ARADHYA GUPTA 96.80%	2nd RUK-SAR NAZ 95.00%	3rd SANAMCAN DUBEY 94.80%
--------------------------	------------------------	---------------------------

SUBJECTWISE HIGHEST MARKS

English - 94	Hindi - 95	Science - 96
Sanskrit - 100	Mathematics - 100	Social Science - 100

INFORMATION

REGISTRATION FORMS are AVAILABLE and can be OBTAINED from the ADMISSION CELL at CAMBRIDGE SCHOOL DUMRAON, (Junior Wing, Dr. Jagannarayan Hospital Campus) on all working days from 08 AM to 2 PM.

8210918840, 71319972175, 6396686058
www.cambridgeschooldumraon.in
www.facebook.com/CAMBRIDGE.DUMRAON

CHAIRMAN - MR. T.N. CHOUBEY LIMITED SEATS Hurry Up

सुशासन के राज्य में महिलाएं बनी आत्मनिर्भर: नीतीश

केटी न्यूज/बक्सर

नावानगर हाई स्कूल के खेल मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सुशासन के सरकार में राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ है। महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। जिसमें स्वयं सहायता समूह का विस्तार के संबंध में बताया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूह का विस्तार किया गया एवं जीविका का नाम दिया गया। जिसमें कार्य करने वाली महिला को जीविका दीदी से संबोधित किया जाता है। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह में 10 लाख 51 हजार महिलाएं कार्य करती थीं जो अब बढ़कर एक करोड़ 31 हजार जीविका दीदी हो गई है। उन्होंने महिलाओं के आरक्षण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षक में 50 फीसदी पुलिस में 35 एवं बाकी में 35 फीसदी महिलाओं को आरक्षण हमलों ने दिया है। उन्होंने कहा 2020 के बाद 10 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। आगामी 2025 तक एक लाख युवाओं को नौकरी देंगे। आगे कहा राज्य के विकास में हम लोगों ने हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय के अलावा अन्य कार्य का लाभ दिए हैं।

देश की तरक्की से पूरा दुनिया है आश्चर्यचकित: मंत्री

चुनाव में सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही बातें करनी चाहिए। पर हमारे विरोधी दल भूल से भी विकास की बातें नहीं करते हैं। सिर्फ अफवाह उड़ानें में लगे रहते हैं। यह बातें बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा। उन्होंने कहा कि देश तरक्की से पूरा दुनिया आश्चर्य चकित है। उसी तरह नीतीश कुमार के द्वारा राज्य में विकास से पूरा देश आश्चर्य चकित है। उन्होंने कहा विरोधी दल सिर्फ खाली खतरे एवं आरक्षण हटाने की रट लगाए हुए हैं। पर उन्हें यह मालूम नहीं की संविधान में आरक्षण हमारे देश से कोई भी मिलकर मिटा नहीं सकते हैं। यह उनकी मुद्दा सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास की धारा पर एनडीए की सरकार गरीबों के उत्थान के साथ ऊंची जाति के गरीब परिवार को अधिक उत्थान के लिए कई योजना भी चलाई है।

विकास के लिए मोदी नीतीश की जोड़ी है सर्वश्रेष्ठ: मिथिलेश तिवारी
चुनावी सभा में उपस्थित बक्सर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि बनारस की तर्ज पर बक्सर का विकास करेंगे। इसके लिए वे संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव एक तरफ परिवारवाद तो एक तरफ विकासवाद है। कहा नरेन्द्र मोदी या फिर नीतीश कुमार के कोई भी परिवार के सदस्य राजनितिक में नहीं है। उन्होंने कहा मोदी सरकार ने जिस तरह देश की विकास किया है, उसी तरह सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में विकास की बयार बहा दिया है। विकास की दिशा में मोदी एवं नीतीश की जोड़ी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जोड़ी है।

नेताओं को मशकत से मंच पर मिली जगह

सीएम के चुनावी सभा में मंच पर बैठने को आतुर नेताओं को भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच तक पहुंचाने में काफी मशकत करनी पड़ी। मंच पर मौजूद सीएम के कमांडो नेताओं को मंच तक नहीं पहुंचने दे रहे थे। कुछ मिनट चुने नेता ही मंच पर आसिन हो सके। कई नेताओं को दर्शक दीर्घा में बैटना पड़ा।

नहीं उठा मलई बराज का मुद्दा, किसान हुये मायूस

सीएम के चुनावी सभा में विकास से संबंधित चर्चा हुई। पर मलई बराज का कोई भी मुद्दा नहीं उठाया। ऐसे में क्षेत्र के किसान एक बार फिर मायूस हो गए हैं। सभा में किसानों ने यह सोचकर पहुंचे थे कि इस चुनावी सभा मंच से मुख्यमंत्री मलई बराज से संबंधित कोई आश्वासन देंगे। पर मुख्यमंत्री द्वारा मलई बराज पर कोई विचार नहीं रखने से किसानों के उम्मीद पर पानी फिर गया। क्षेत्र के किसानों का कहना था कि कृषि पर मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। जबकि यह क्षेत्र कृषि पर निर्भर है। उन्होंने कहा हर घर बिजली, हर घर नल का जल एवं हर घर शौचालय के साथ हर खेत में पानी की भी जरूरत है।



सर्वजन सुखाय व सर्वजन हिताय के लिए बसपा को विजयी बनाएं : मायावती

- ◆ बसपा सुप्रिमो ने बक्सर में चुनावी सभा को किया संबोधित
- ◆ बोली ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो भाजपा का सत्ता में लौटना मुश्किल

केटी न्यूज/बक्सर

बसपा सर्वजन सुखाय व सर्वजन हिताय की सोच रखती है। इस सोच के साथ ही इस बार बसपा चुनावी मैदान में अकेले उतरी है। उक्त बातें बसपा सुप्रिमो तथा यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। वे बक्सर के आईटीआई मैदान में अपने पार्टी प्रत्याशी अनिल चौधरी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थीं। बसपा सुप्रिमो ने कहा कि यदि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो भाजपा की सरकार का सत्ता में वापस लौटना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा की जुमलेबाजी व नाटकबाजी समझ चुकी है। उन्होंने भाजपा को जातिवादी, पूंजीवादी व सांप्रदायिक



पार्टी बताया और कहा कि कांग्रेस की तरह भाजपा-आरएसएस की सरकार गरीबी, महंगाई व भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में विफल है। उन्होंने कांग्रेस तथा उनके सहयोगी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि आजादी के बाद से करीब 60 वर्षों तक देश तथा अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रही हैं। लेकिन, दलितों व पिछड़ों का विकास नहीं कर सकी। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज के लोगों को ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर और काशीराम के सपनों का देश बनाने के मुद्दे का उठाते हुए कहा कि हर हाथ को रोजगार मिलने से ही देश की

समस्या दूर होगी तथा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी यूपी के तर्ज पर केंद्र में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तर्ज पर देश चलाएगी। सभा की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो व संचालन राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने किया। जनसभा को बसपा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो, बक्सर लोकसभा प्रत्याशी अनिल कुमार, प्रदेश महासचिव अमर आजाद, अभिमन्यु कुशवाहा, पूर्व विधायक अंबिका यादव आदि ने संबोधित किया। मौके पर बसपा के राज्य व जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ ही हजारों की भीड़ मौजूद थी।

विपक्ष की स्थिति हारे हुए पहलवान की तरह : जीतन राम मांझी



केटी न्यूज/केसठ

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार को केसठ में एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की स्थिति हारे हुए पहलवान की तरह है। जिस तरह से हारा हुआ पहलवान यह कहता है कि अबकी बार हम जरूर पटक देंगे, बावजूद उसके पटकने में वह असफल साबित होता है। उच्च विद्यालय केसठ के खेल मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीएर दूल्हा के बराबर सजाने वालों की स्थिति 2019 से भी बदतर होने वाली है। इस चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता एक जुट होकर एनडीए के पक्ष में मतदान कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के द्वारा प्रधानमंत्री पद का कौन दावेदार है, इसकी घोषणा अब तक नहीं की गई है। वे लोग लगातार यह कह रहे हैं कि एनडीए बहुमत नहीं प्राप्त कर सकेगा, यह उनके हताशा का परिचायक है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व

एनडीए प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क

बक्सर एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने जनसंपर्क कर आशीर्वाद मांगा। उन्होंने केसठ नया बाजार, पुराना बाजार सहित कई दर्जनों गांवों का भ्रमण कर लोगों से समर्थन मांगते हुए वोट मांगा।

बाइक-कार की टक्कर में शिक्षक घायल, रेफर

केटी न्यूज/चौसा

चौसा-बक्सर मुख्य मार्ग पर मुफरिसल थाना के महादेवा घाट व शमशान घाट के बीच बन रहे थर्मल प्लांट के पम्प हाउस के पास तेज गति कार व बाइक की आमने-सामने की टक्कर हो गई। जिसमें बाइक सवार 45 वर्षीय शिक्षक गम्भीर रूप से घायल हो गए। जिसके इलाज के लिए ग्रामीणों की मदद से पुलिस द्वारा घायल को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। जहा प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों द्वारा बेहतर इलाज हेतु रेफर कर दिया गया। सूचना के अनुसार शिक्षक की हालत गम्भीर बनी हुई थी। मिला जानकारी के अनुसार राजपुर थाना के श्रीकान्तपुर निवासी मो.असलम सरकारी शिक्षक है वह राजपुर मध्य विद्यालय में कार्यरत है। जिले में इन दिनों चुनाव को लेकर प्रशिक्षण चल रहा है। जिसमें वह भाग लेने के लिए बक्सर जा रहे थे। इसी बीच महादेवा घाट से आगे निर्माणधीन प्लांट पम्प हाउस के पास सामने से



तेज गति से आ रही कार में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, दोनों वाहन में परखच्चे उड़ गए। इस घटना में शिक्षक गम्भीर रूप से जखमी हो गए। उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपचार किया गया। परंतु उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वहीं इस बात की सूचना मिलते ही शिक्षक के परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के सभी सदस्य जैसे-तैसे सदर अस्पताल पहुंचे। परिजन शिक्षक को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर ले गये।

नहीं सुधरी रेलवे स्टेशन रोड की जाम की व्यवस्था

डुमरांव। ट्रेन से उतरने के बाद वाहन पकड़ने के लिए जब स्टैंड की तरफ यात्री रूख करते हैं, तो उन्हें जाम का सामना हो जाता है। फिर ट्रेमों स्टैंड में नहीं रोड किनारे लगे मिल जाते हैं। ट्रेमों पर बैठने बाद बेतरतीब ढंग लगे ट्रेमों के चलते जाम लग जाता है। लोग इस गर्मी के मौसम में जाम फंसकर परेशानी में पड़ जाते हैं। परिवार यदि साथ है तो बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है। कई बार यह स्थिति पैदा हो जाती है कि ट्रेन प्लेटफार्म पर लगा हुआ। यात्री अपने परिवार के साथ ट्रेन पकड़ने की जल्दी में है। लेकिन, जाम के कारण वह रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच जाते हैं। ट्रेन सामने से रवाना हो जाती है। परंतु जाम के कारण यात्री ट्रेन नहीं पकड़ पाता है। जाम हटाने की बात कहने पर दुकानदार सहित ऑटो चालक मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इस जाम पर नहीं रेलवे प्रशासन कोई कार्रवाई करता है और नहीं स्थानीय प्रशासन ही। जबकि वहीं पर जीआरपी व आरपीएफ भी है।

शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में यज्ञ उपासना का आयोजन



केटी न्यूज/डुमरांव

बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर और वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा के जन्म शताब्दी वर्ष 2026 के उपलक्ष में गुरुवार को शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में उमेश गुप्ता रौनियार के निवास स्थान गीता कुंज छठिया पोखरा पर यज्ञ उपासना का आयोजन आचार्य श्री हरेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा संपन्न किया गया। बताया गया कि हवन यज्ञ करने से वायुमंडल के शोधन होने से लेकर बीमारियां दूर होने तक व लड़ाई, झगड़ा, कलेश, कलह तथा जो भी वैचारिक पर्यावरणीय समस्याएं हैं, उसके समाधान होने में मदद मिलेगी,

इसलिए यज्ञ करना पुनीत का कार्य है। इसमें यजमान उमेश गुप्ता रौनियार, बबिता देवी के साथ समस्त परिजन उपस्थित रहे, साथ ही चिल्ड्रेन हैप्पी होम विद्यालय के प्रिंसिपल विमलेश कुमार सिंह अपने विद्यालय के बच्चों के साथ यज्ञ में शामिल हुए। इस अवसर पर बबन खरवार, आशीष गौतम, प्रदुमन खरवार, अजय कुमार, टुक टुक, पीहू कुमारी, मंजू देवी, रिया राज, सुमन देवी, गीता देवी, राजकेशरी देवी, मनोज कुमार गुप्ता, मुरुंजुश राय, शिखा राय, सूरज कुमार, निशा कुमारी, रोशनी कुमारी, अमरजीत कुमार, आस्था गुप्ता, नवीन गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

अनुमंडल अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदस्थापित होते ओपीडी सेवा पटरी पर लौटी

- ◆ पांच हजार मरीज डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल की ओपीडी सेवा में चालू महीने में हुए हैं रजिस्टर्ड
- ◆ 3 हजार पहले था पूरे महीने का मरीजों का एवरेज

केटी न्यूज/डुमरांव

अनुमंडलीय अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदस्थापित होते ही बेपटरी हुई ओपीडी सेवा धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगी है। कुछ महीने पहले तक महीना में लगभग 3 हजार मरीज ओपीडी सेवा में रजिस्टर्ड हुआ करते थे। अब ओपीडी सेवा में इससे दोगुना मरीज पहुंच रहे हैं। इसका मुख्य कारण अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदस्थापित होना है। पहले जहां तीन से चार डाक्टरों पर अस्पताल चलता था, अब उसकी जगह पर 13



चिकित्सक पदस्थापित हो चुके हैं। इन पदस्थापित चिकित्सकों में कुछ समान्य रोग के हैं तो कुछ विशेषज्ञ रोग के हैं। मिला जानकारी के अनुसार पहले जहां शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक एक दशक से गायब थे। जिसके लेकर स्थानीय विधायक डॉ अजीत कुशवाहा ने विधानसभा में आवाज में उठाया था। जिसके बाद दो शिशु रोग विशेषज्ञों की पोस्टिंग की गई। हालांकि बच्चों के लिए बनाये गये स्पेशल युनिट भी विधानसभा में आवाज में उठाया था। नहीं आ पाया है। जिस कारण अब भी गंभीर रूप से बीमार बच्चों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है।

हड्डी रोग विशेषज्ञ भी पहले नहीं थे, अब उनको भी पदस्थापित कर दिया गया है। पहले महिला चिकित्सक दो से तीन हुआ करती थी, अब पांच की पोस्टिंग होने से महिलाओं की उनकी सेवा मिलनी शुरू हो गई है। पहले प्रसव के दौरान महिला चिकित्सक के नहीं विधानसभा में आवाज में उठाया था। अब महिला चिकित्सक अपनी सेवा देने लगी हैं। इतना ही नहीं अब रात्रि में भी महिला चिकित्सक को सेवा देना पड़ रहा है। ऐसे में मरीजों को हर तरह से सहूलियत मिलने से उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई है।

डीएम के नेतृत्व में मतदान दलों के द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एमपी हाई स्कूल परिसर में हुआ मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया व ईवीएम से अवगत हों सभी कर्मी : डीएम अग्रवाल

- ◆ एमपी हाई स्कूल में आयोजित हुआ मतदान कर्मियों का द्वितीय प्रशिक्षण
- ◆ कर्मियों ने पोस्टल बैलेट से किया मतदान

केटी न्यूज/बक्सर

आसन लोकसभा चुनाव 2024 को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कर्मियों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल के नेतृत्व में मतदान दलों के द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एमपी हाई स्कूल परिसर में

किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्वाहन दस बजे से शाम पांच बजे तक दो पालियों में आयोजित किया गया। आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 383 मतदान दलों के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के बाद कर्मियों ने विद्यालय परिसर में बनाए गए फैसिलिटेशन सेंटर पर जाकर पोस्टल बैलेट से मतदान किया।

चुनाव के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखने का दिया निर्देश: जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदान दल के सभी पदाधिकारी व कर्मियों को चुनाव की महत्ता को देखते हुए ईवीएम मशीन से संपूर्ण मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण पूरी गहनता से



प्राप्त करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मतदान दलों को चुनाव के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने को भी कहा गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण केंद्र पर

सभी बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा एमपी हाई स्कूल में स्थित फैसिलिटेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया गया एवं बक्सर जिले

के मतदान कर्मियों का पोस्टल बैलेट से कराया जा रहे मतदान कार्य का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निर्वाचन कार्य में प्रतिनिवृत्त

कोरानसराय में जमीनी विवाद में दो पक्ष मिड़े, मामला दर्ज

- ◆ दोनों पक्ष ने दिया पुलिस को आवेदन, झोपड़ी हटायें जाने को लेकर उपजा था विवाद

केटी न्यूज/डुमरांव

अनुमंडल के कोरानसराय थाना क्षेत्र के मुंगाव गांव स्थित सनेही टोला मोहल्ले में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष भीड़ गये। मारपीट की इस घटना में दोनों पक्ष के चार लोग जखमी हो गये, जिनका इलाज अस्पताल में कराया गया। इस मामले में एक पक्ष के रामजी प्रसाद सिंह ने अपने आवेदन में पुलिस को बताया है कि गांव के तीन-चार लोग मेरे द्वारा लगाये गये झोपड़ी को हटा रहे थे। इसी दौरान छट्टु सिंह, संतोष

सिंह, लालू यादव वहां पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान रामजी सिंह सहित अन्य जखमी हो गये। वहीं दूसरे पक्ष के सावित्री देवी ने पुलिस को लिखित बताया है कि विवादित जमीन पर झोपड़ी लगाया गया था। उस जमीन पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। जब इसका विरोध किया तो रामजी प्रसाद सिंह सहित अन्य लोग लाठी-डंडे से पिटाई कर दी। इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त जमीन को लेकर पूर्व में भी विवाद हो चुका है। लेकिन, इस बार बात आगे बढ़ गई है। वहीं थानाध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि पुलिस मामले को दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दी है।

टाइबेकर में कुर्रा ने खजुरी को हरा जिला स्तरीय मिनी पोल फुटबॉल प्रतियोगिता जीती

◆ **मैन आफ द मैच कुर्रा टीम के आदिल, मैन आफ द सीरिज का पुरस्कार उपविजेता टीम खजुरी के आसिफ को मिला**

केटी न्यूज/गाजीपुर
स्मल गांव स्थित खेल मैदान पर बीती रात आरएफसी क्लब कि ओर से दूधिया रोशनी में रात्रि कालीन दूसरी जिला स्तरीय मिनी पोल फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया, जो देर रात को समाप्त हुआ।

खेले गए इस प्रतिष्ठापरक फाइनल मुकाबले में कुर्रा ने ट्राइब्रेकर के जरिए खजुरी को पांच-चार से पराजित कर कप पर कब्जा जमा लिया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि युवा समाजसेवी कृष्णानंद राय ने विजेता व उपविजेता टीमों को कप देकर पुरस्कृत किया। इस दौरान मैन आफ द मैच का पुरस्कार विजेता कुर्रा टीम के आदिल। जबकि मैन आफ द सीरिज का पुरस्कार उपविजेता टीम खजुरी के आसिफ को मिला। प्रतियोगिता कुर्रा व खजुरी के मध्य



खेला गया। फाइनल मुकाबला शुरू से ही संघर्षपूर्ण रहा। मध्यान्तर से पहले दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को कई शानदार व नजदीकी अवसर मिले। मगर उसके खिलाड़ी इस मौके का फायदा नहीं ले सके। मध्यान्तर होने तक दोनों ही टीमों गोल रहित रही। मध्यान्तर के बाद शुरू हुए मुकाबले में भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों के कलात्मक खेल का प्रदर्शन कर दर्शकों ने रोमांच भर दिया। इसी दौरान मैच के 35वें मिनट में कुर्रा के इनामु ने विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को छकाते हुए शानदार मैदानी गोलकर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद मैच में पिछड़ रही खजुरी टीम के रईस ने मैच के 55वें मिनट में मध्य मैदान से एक शानदार शाट मारा और कुर्रा टीम के गोलकीपर को भेदती हुई सीधे गोलपोस्ट में समा गई। इस तरह दोनों ही टीमों का स्कोर 1-1 हो गया। मैच में बराबरी के बाद दोनों ही टीमों ने मुकाबला अपने पक्ष में करने के लिए एक दूसरे के गोलपोस्ट पर कई हमले किए। मगर एक दूसरे के गोलकीपरों ने हर प्रयासों को नाकाम किया। मैच समाप्त होने तक दोनों ही टीमों 1-1 की बराबरी पर रहें। इसके बाद निर्णायक ने ट्राइब्रेकर का सहारा लिया। जिसमें कुर्रा ने खजुरी को 5-4 से पराजित कर फाइनल मुकाबला

एक नजर

गर्मी के मौसम के उतराव चढ़ाव से बच्चों की सेहत पर पड़ रहा प्रभाव

चंदौली। मौसम के उतर चढ़ाव के कारण इन दोनों बच्चों के सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उल्टी, पेट दर्द जैसी बीमारियां बच्चों को घेर रही हैं। पंडित कमलापति त्रिपाठी संयुक्त जिला चिकित्सालय की बात करें तो जहां पहले 50 मरीज बच्चों के आते थे, लेकिन अब वह बढ़कर 100 से अधिक हो गए हैं। यही नहीं 5 से 10 मरीज भर्ती भी हो रहे हैं। ऐसे मौसम में चिकित्सकों की माने तो बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यालय स्थित पंडित कमलापति त्रिपाठी संयुक्त जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन एक हजार मरीजों की ओपीडी हो रही है। इसमें लगभग 100 बच्चे भी शामिल हैं। इनमें उल्टी दस्त के अलावा पेट दर्द, डीहाइड्रेशन के अलावा तमाम तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। यही नहीं प्रतिदिन 5 से 10 बच्चे भर्ती भी हो रहे हैं। ऐसे में बच्चों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैसे-जैसे मौसम में तपिश बढ़ती जाती है, हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान, अपनी लाइफ स्टाइल और खानपान का पूरा ध्यान रखें, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो, जिससे तबियत खराब न हो। इसी तरह, नाए जन्मे शिशु को भी स्पेशल केयर की जरूरत होती है। दरअसल, नाए जन्मे शिशुओं के लिए बाहरी वातावरण और मौसम बिल्कुल नया होता है। उन्हें बाहरी चीजों के साथ तालमेल बैठाने में मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसे में अगर गर्मी में उनकी अच्छी तरह देखभाल न की जाए, तो उनकी भी तबियत बिगड़ सकती है।



खबरें फटाफट

बलात्कार के आरोपी को मिली 25 वर्ष की सजा

बलिया। बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को गुरुवार की दोपहर 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 30 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी का नाम विकास पासी पुत्र स्वर्गीय राम नारायण पासी निवासी हदयपुर थाना दोकटी है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2023 में दोकटी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के उपरांत सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 30 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

मादक पदार्थ तस्कर को मिली 10 साल की सजा

बलिया। मादक पदार्थ तस्कर की मामले में सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार की दोपहर आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी का नाम राज कुमार पुत्र कुशव तुरहा निवासी काशीराम आवास वितबड़ागांव है। आरोपी के खिलाफ जीआरपी पर वर्ष 2022 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

दो आरोपी रतसड़ पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार

बलिया। गड़वार थाने की पुलिस ने चोरी के आरोप में दो आरोपियों को रतसड़ पेट्रोल पंप के पास से गुरुवार की दोपहर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों का नाम रोहित सिंह पुत्र व्यास सिंह निवासी ग्राम मदनम व राहुल सिंह पुत्र उमेश सिंह निवासी दक्षिणी वृद्धी कब्जा रतसड़ थाना गड़वार है। आरोपियों के पास से विटो का एक एंड्राइड मोबाइल बरामद हुआ। आरोपियों के खिलाफ गड़वार थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद से आरोपीगण

केंद्रीय मंत्री ने भाजपा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में की प्रेसवार्ता, बोले...

देश में तीसरी बार लगातार चलेगी लोककल्याण की सरकार : अश्विनी

- ◆ लोकसभा क्षेत्र 72 बलिया से भाजपा उम्मीदवार नीरज शेखर के लिए किया प्रचार
- ◆ भाजपा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय झोपड़ी पर प्रेस के साथियों संग किया वार्ता भी



पुरजोर सिफारिश की। श्री चतुर्वेदी ने कहा कि लोककल्याण की सरकार चल रही है और उसकी तीसरी पारी शुरू होने वाली है। भूमि की धरती से चंद्रशेखर जी के पुत्र राज्यसभा सांसद नीरज शेखर चुनाव लड़ रहे हैं। धरती ने इस बार यह तय कर लिया है जो राम को लाए हैं हम उनको

हैं। मोदी को मजबूत करने के लिए बलिया से नीरज शेखर जरूरी हैं। कहा नीरज शेखर को जनमानस ने बलिया से दिल्ली भेजने का निश्चय कर लिया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विपक्ष पर करारा प्रहार किया। पवन सिंह को भाजपा से निकाले जाने पर तेजस्वी यादव के सवाल पर कहा कि उपेन्द्र कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। हेलीकॉप्टर में केक काटने के सवाल पर कहा कि पप्पू और गप्पू की बैतरणी हवाई जहाज से भी पार नहीं होगी। चार जून को देश से विपक्ष का सूपड़ा साफ होने वाला है। प्रेसवार्ता के समय वरिष्ठ भाजपा नेता पं. राजीव उपाध्याय, भाजपा जिलाध्यक्ष पूर्ण विधायक संजय यादव मौजूद रहे। प्रेसवार्ता के बाद केंद्रीय मंत्री ने नगर विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में जनसंवाद भी किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर हुई चर्चा

केटी न्यूज / चंदौली
भारतीय जनता पार्टी की बैठक बृहस्पतिवार को संसदीय कार्यालय में हुई। इसमें 25 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान लोकसभा सांसद एवं प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के पक्ष में एक जनसभा को सफल बनाने का आह्वान किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष काशी नाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज चंदौली में 11 बजे जनसभा स्थल



पर पहुंचेंगे। कहा कि सभा को सफल बनाने के लिए सभी लोग जी जान से जुड़ जाए। यह सभा लोकसभा की सबसे ऐतिहासिक सभा होगी। अंत में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान आमका केसरी, संवैश्व कुशवाहा, अनिल सिंह, राणा प्रताप सिंह, छत्रबलि सिंह, शिवराज सिंह, सुजीत जायसवाल, उमाशंकर सिंह जितेंद्र पाण्डेय, अनिल तिवारी, किरन शर्मा, सुरेश मौर्य, रामसुंदर चौहान, विरेंद्र सिंह, प्रमानंद

कमर में सोना बांध कर ले जा रहा तस्कर गिरफ्तार, 1.47 करोड़ का सोना बरामद

केटी न्यूज/पीडीडीयू नगर
राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) वाराणसी की टीम ने पीडीडीयू जंक्शन से तस्कर कर ले जा रहे 2006.010 ग्राम सोना बरामद किया है। तस्कर कमर में सेलो टेप से सोना चिपका कर वाराणसी ले जा रहा था। बरामद सोने की कीमत 1.47 करोड़ 44 हजार 174 रुपया है। बरामद हुए सोने के बारे में प्रमोद महर्षि ने बताया कि महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के चोपड़ी समोला निवासी सोमनाथ बाबर के कहने पर सोना ले जा रहा था। बताया कि सोमनाथ की सोना गलाई की दुकान करीमपुर जिला नदिया में कहीं पर है। मैं सोमनाथ बाबर के यहाँ डिलवरी का काम करता हूँ। यह सोना सोमनाथ बाबर ने मुझे वाराणसी में डिलवरी करने के लिए दिया था। बताया कि सोमनाथ बाबर ने मुझे बर्षमान मे एक

रुम किराये पर लेकर दिया है। पिछले चार माह मे लगभग आठ बार सोने के डिलवरी के लिए वाराणसी आ चुका हूँ। हर बार सोमनाथ बाबर करीमनगर से आकर बर्षमान मे मुझे सोना देता है और मैं वहाँ से लेकर ट्रेन पकड़ कर वाराणसी आता हूँ। इस काम के लिए मुझे प्रतिमाह 10 हजार रुपये मिलता है। प्रत्येक डिलवरी पर एक हजार रुपये अलग से मिलता है। सोमनाथ बाबर ने बताया है कि यह सोना बांग्लादेश के रास्ते तस्करी कर भारत लाया गया है। यह सोना विदेशी है इसके ऊपर की मार्किंग गला कर मिटा दी गई है। इसके ऊपर सिल्वर कोटिंग किया गया है इससे सोने को छिपाया जा सके। यदि कोई एजेंसी पकड़ ले तो सिल्वर कोटिंग के कारण सिल्वर लगता है।

दो दिन पहले गायब युवक का शव गंगा में उतराया मिला

गाजीपुर। करंडा थाना क्षेत्र के नगवां घाट के पास घर से दो दिन पूर्व लापता युवक का शव गंगा में उतराया मिला। इससे चहुँओर बसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के रोने-बिलखने से गांव में चीख-पुकार मची हुई है। इलाके के महारौली निवासी रंजीत राम (22) डीजे में संचालन करने का काम करता था। वीते 21 मई को वह डीजे का संचालन करने के लिए शहर कोतवाली के महाराजगंज एक शादी के कार्यक्रम में गया था। वहां से वह देर रात पिकअप से वापस लौट गया, लेकिन घर नहीं पहुंचा। दूसरे दिन जब परिजन उसके मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास करने लगे तो कई जानकारी नहीं हुई। परिवार के लोग ग्रामीणों के साथ

सीमा विवाद में उलझी रही धाना और करंडा पुलिस

गाजीपुर। गंगा में उतराये मिले युवक के शव की जानकारी होते ही धाना और करंडा पुलिस मीके पर तो पहुंच गई, लेकिन सीमा विवाद को लेकर घंटों उलझी रही। घंटों मंथन के बाद करंडा पुलिस ने थाना क्षेत्र के तहत शव मिलने की पुष्टि करते हुए कब्जे में

पिपरीली बड़ागांव के पास वर्चस्व में दवा कारोबारी पर चली गोली, बाल बची जान

बेल्थरा रोड। उर्बां थाना के पिपरीली बड़ागांव के पास नहर मार्ग पर बुधवार की रात दवा कारोबारी राहुल कुमार गोंड पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। बाइक से घर जा रहे राहुल पर बदमाशों द्वारा पीछे से फायरिंग की गई। जिसके कारण राहुल बाइक समेत नहर के सड़क से नीचे खेत में जा गिरे और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जबकि हमलावर बाइक समेत निकल भागे। पूरी घटना दवा कारोबार में वर्चस्व के लिए किया गया बताया जा रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। जख्मी राहुल कुमार गोंड को उपचार के लिए देर रात सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां अन्य कारोबारियों की भीड़ लग गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेने के बाद जांच में जुट गई। जबकि डॉक्टर ने जख्मी राहुल को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बाइक सवार हमलावरों की संख्या तीन बताई जा रही है। घटना के समय राहुल कुमार गोंड बेल्थरा रोड नगर स्थित अपनी मेडिकल दुकान से बाइक द्वारा अपने घर पिपरीली बड़ागांव जा रहे थे। इस बीच बाइक सवार बदमाश उनके पीछे लग गए और पिपरीली नहर पर घेरकर गोली मारने की नाकाम कोशिश की। संयोग डीक रहा कि जानलेवा फायरिंग में कारोबारी बाल बाल बच गए। घटना का कारण दवा कारोबार में वर्चस्व को लेकर चल रही पुरानी रींशज बताया जा रहा है। उर्बां थाना प्रभारी निरीक्षक विपिन सिंह ने कहा कि फायरिंग की घटना की जांच की जा रही है। हमलावर बदमाश को कतई नहीं बख्शा जाएगा। हालांकि अभी तक मामले में लिखित तहरीर पुलिस को नहीं मिली है।

ग्राम सभा में सनातन ने कहा सरकार बनते ही अग्निवीर योजना होगी समाप्त जब-जब सत्ता निरंकुश हुई, तब-तब दबाव ने आगे बढ़कर किया नेतृत्व

केटी न्यूज/बलिया

इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सनातन पाण्डेय बृहस्पतिवार को बैरिया विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों ग्रामसभा में सम्मर्क किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से आशीर्वाद और सहयोग मांगा। कहा कि मैं एक साधारण परिवार का सदस्य हूँ। मैं आम आदमी की समस्याओं से भली भांति परिचित हूँ। आज लोगों के सामने महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या हैं। कर्हाकि दबाव की भूमि क्रांतिकारियों की भूमि हैं। जब-जब



सत्ता निरंकुश हुई है। इसी इलाके ने आगे बढ़कर निरंकुश सरकार के खिलाफ नेतृत्व किया है। आज देश का लोकतंत्र संकट में है। युवा

कहाकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनते ही अग्निवीर योजना समाप्त की जाएगी। देश के हर गरीब को 10 किलो अनाज दिया जाएगा। महिलाओं के खाते में 1000000 एक लाख रुपया नगद दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार नहीं मिलने पर 8500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बलिया में मेडिकल कालेज की स्थापना निश्चित किया जाएगा। इस मौके पर विधायक जयप्रकाश अंचल, तारकेश्वर मिश्र, दशरथ यादव, शैलेश सिंह, शम्भू ठाट्टर, कृष्ण बिहारी आदि उपस्थित रहे।

गाजीपुर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व शान्तिपूर्ण व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस ने बिहार के सीमावर्ती इलाकों में चेकिंग की। देखा जाए तो पुलिस निरोधात्मक कार्रवाई में जुट गई है। चुनाव के दृष्टिकोण से रेवतीपुर थाने की पुलिस ने 955 लोगों को 107/16, 110 जी में पांच गुंडा एक्ट और एक पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाई की गई है। इसके अतिरिक्त पुलिस ने 207 असलहों में से अब तक 173 लाइसेंस असलहों को जमा करा लिया गया है। जबकि इसके अतिरिक्त पुलिस ने बृहस्पतिवार को तिलवां मोड आदि जगहों पर सड़ियों की तलाश और वाहनों की सघन चेकिंग अभियान

चुनाव को लेकर बिहार से सटे क्षेत्रों में चला चेकिंग अभियान

चलाया। जिसमें अभियान के क्रम में पुलिस ने 20 वाहनों का ई-चालाने करने के साथ ही उनके ऊपर करीब एक लाख का जुमाना भी ठोंका। अभियान के तहत पुलिस ने कई चार पहिया वाहनों के शीशे से काली फिल्म भी उतरवाई। उधर थानाध्यक्ष ने इलाके के संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त करते हुए लोगों से किसी सदिश के दिखने पर तुरंत सूचना देने का निर्देश दिया। ताकि ऐसे लोग जो इलाके सहित लोकसभा चुनाव में शान्ति व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं उनके खिलाफ समय रहते हुए सख्त कार्यवाई की जा सके। इस दौरान थानाध्यक्ष ने मातहतों को निर्देश दिया कि अपने बोट व हल्के में सतर्क दृष्टि बनाए रखें। चुनाव में किसी भी कीमत पर शराब तस्करी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाई का निर्देश दिया। थानाध्यक्ष राजीव कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सदिश लोगों पर नजर रखने के साथ ही उनकी तलाश में समय समय पर सभी छोटे बड़े वाहनों की सघन चेकिंग अभियान के साथ ही आदर्श आचार संहिता का भी पालन लोगों को कराया जा रहा है। बताया कि पावंद लोगों के द्वारा दुबारा किसी तरह की मारपीट या अराजकता फैलाने की कोशिश की गई तो वह जेल तो जाएंगे। पुलिस मुचलके में पावंद कराई गई संपत्ति भी जप्त कराएंगे। थानाध्यक्ष राजीव कुमार त्रिपाठी ने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके पर

जौनपुर में गरजे अखिलेश यादव, बेकाबू हुई मीड, तोड़ी सैकड़ों कुर्सियां

केटी न्यूज/ जौनपुर

लोकसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश एवं केंद्र सरकार पर जाम का निशाना साधते हुए कहा कि इनको अपने ही लोग हारने का काम कर रहे हैं जो लोग 400 पर का नारा दे रहे थे 400 पर का नारा देने वाले देने वाले लोग 400 बार हारने जा रहे हैं यहां सब पढ़े-लिखे लोग हैं अगर 400 पर का नारा किसी ने दिया है तो इसका मतलब यह हुआ है की कुल लोकसभा की जो सीटें हैं 543 बाय 43 और अगर 400 पर की जीतने वाले हैं तो बताओ कितने सीटें



मिलती है तो केवल 143 बचती हैं वह स्वयं स्वीकार कर रहे हैं की 400 पर मतलब 143 सीटें ही जीतीं इस बार जो जनता का गुस्सा है इस बार 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तर्सा देगी। समाजवादी पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को रिकार्ड मतों से जीत कर लोकसभा में भेजने का काम करें आप सभी लोग

में देख रहा हूँ अब चुनाव पूर्वांचल की धरती पर आ गया है और जो लोगों में जो गुस्सा है और जिस तरह से पार्टी के लिए हमें जिस तरह समर्थन दिखाई दे रहा है इस बाई पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद जीत कर नहीं जा रहा है। जहां अभी तक मैं कहता था पांचवें वर्षण के चुनाव तक 80 लोकसभा में एक सीट पर

डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, ये जीरो होने जा रहे हैं

भाजपा सरकार गरीबों का माहौल उड़ा रही है देश में महंगाई चरम पर है नौजवान बेरोजगार हैं ऐसे में इस बार देश की जनता जन विरोधी इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब से समाजवादी और कांग्रेस एक हुए हैं तब से डबल इंजन टकरा रहे हैं। ये जीरो होने जा रहे हैं। भाजपा का यूपी की 80 की 80 सीटों पर सफाया हो रहा है।

लड़कई है वरना पूरी सीटें डबला गठबंधन जीत रहा है लेकिन जिस समय प्रयागराज का समर्थन मिला है, यह आजमगढ़ और आजमगढ़ से आगे जो समर्थन मिल रहा है तथा इधर जो जौनपुर वालों ने इस बार तैयारी कर ली है। इस बार लग रहा है देश के प्रधान सांसद जी भी अपनी क्यूटो लोकसभा से भी हारने जा रहे हैं। मंच से बोले अखिलेश जौनपुर के एक नेता हमसे एक शादी में मिले थे अपने लिए टिकट मांग रहे थे इसके बाद ही उनको जेल भिजवा दिया गया। उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिलाया, उसे भी कटवा दिया गया बाद में वह जेल से बाहर आए है अब बीजेपी का प्रचार कर रहे है वह सब कौन करवा है सब जानते है। जनसभा में आबी हजारों की तादात में बेकाबू भीड़ ने सैकड़ों कुर्सियों को तोड़ डाला।

एक नजर

पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

आजमगढ़। आजमगढ़ में अहिरोला थाने की पुलिस ने मुठभेड़ में 50 हजार के इनामी अपराधी हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया है। असल में एसपी अनुराग आर्य ने जिले में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 50 हजार के इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी डी 218 गैंग का लीडर सलमान है। सलमान पर यूपी के 7 जिलों में 30 से अधिक गौ-तस्करों के गंभीर मुकदमे दर्ज हैं पुलिस और स्वाट टीम को काफी दिनों से इसकी तलाश थी। आरोपी गैंगस्टर एक्ट में लगातार फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी के लिए आईजी अखिलेश कुमार ने 50 हजार का इनाम भी घोषित किया था। इस मामले में 6 फरवरी को पीडित संजय कुमार ने अहिरोला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि अभियुक्त सलमान ने पीड़ित की माता और दादी के नाम की जमीन को जबरन छेदी धोखे से लिखवा लिया। अहिरोला थाने के प्रभारी सुनील कुमार दुबे और स्वाट टीम के प्रभारी नंद कुमार तिवारी गौरीपुर पुलिसिया के पास चोकिंग कर रहे थे। इसी बीच सूचना मिली कि अभियुक्त सलमान ग्राम शाहपुर से बरुईपुर पुलिसिया होते हुए गौरीपुर पुलिसिया की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर अहिरोला थाने की पुलिस और स्वाट टीम ने प्रभारी सुनील कुमार को रोकने का प्रयास किया तो आरोपी भागने लगा। इस दौरान जब पुलिस ने घेराबंदी की तो अपने को गिरता देख आरोपी ने पुलिस पर फायर कर दिया जिसके जवाब में पुलिस द्वारा की गई कंट्रोल फायरिंग में अभियुक्त के दोनों पैर में गोली लगी। आरोपी कुख्यात गौतस्कर है। अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अभियुक्त की पहचान हिस्ट्री शीटर गैंग लीडर सलमान के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से एक देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी सलमान पर आजमगढ़ मऊ अंबेडकर नगर जौनपुर गोंडा सहित कई जिलों में 30 से अधिक पशु क्रूरता और पशु तस्करों के गंभीर अपराधी मुकदमे दर्ज हैं और इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी पर कई गंभीर मुकदमें दर्ज हैं। पुलिस द्वारा की गई कंट्रोल फायरिंग में पैर में गोली लगी है। आरोपी को रिमांड लेकर जेल खाना किया जा रहा है।

जिलाधिकारी के साथ प्रेक्षकों ने मतगणना स्थल का लिया जायजा

जौनपुर। प्रेक्षक सी.बी.० बलगत, 74- मखलीशहर (अंजा०) प्रेक्षक के० लीलावती, जिला निवाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार मॉदड़ ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के मूल्यांकन भवन में बने मतगणना स्थल और पार्टी रवानगी स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रवानगी स्थल पर बैरिक्डिंग सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखे। इसके साथ ही शौचालय, प्रकाश व पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था, वाहनों के पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये। पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल पर दिशा सूचक, सी.सी.टी.वी कैमरे की व्यवस्था देखी और सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आपस में समन्वय रखते हुए पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ निर्वाचन सम्पन्न कराए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम, ज्वान्ट मजिस्ट्रेट इशिता किशोर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. गोरख नाथ पटेल सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

खबरें फटाफट

अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत

सोनभद्र। सोनभद्र के बम्हनी बुधवार रात सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। अज्ञात वाहन की टक्कर से घटना हुई। छत्तीसगढ़ निवासी बुज बिहारी (30) पुत्र विक्रम घर से रिश्तेदार के यहां निमंत्रण में परसाटोला पोखरा जा रहा था। दरनखांड के पास जैसे ही पहुंचा अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया। धक्के से बाइक सवार घायल हो गया। आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। 112 नंबर पर तथा बम्हनी पुलिस को सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरबी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उसे बम्हनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्री से 48 लाख का सोना बरामद

वाराणसी। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय



एयरपोर्ट पर बुधवार को करंटम अधिकारियों ने विदेशी सोने की तस्करी पकड़ ली। करंटम की टीम ने शारजाह से आए विमान यात्रियों की जांच पड़ताल में एक आरोपी के पास सोना बरामद किया। जांच के दौरान स्कैनर में प्राइवेट पार्ट में सोना होने पर मशीन ने बीप की आवाज दी, प्राइवेट रूम में ले जाकर तलाशी ली गई। उसने प्राइवेट पार्ट में 3 कैप्सूल में सोने का पेस्ट छिपाया था। करंटम की टीम ने स्कैनर कर उसे पकड़ लिया। इसके बाद डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टरों ने मुश्किल से कैप्सूल बाहर निकाले। सोने की कीमत 48.89 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी की पहचान ईस्ट चम्पारण बिहार निवासी हम्पुडीन अली के रूप में हुई है। सोना जब कर विधिक कार्यवाही करते रहे पचास लाख से कम मूल्य का सोना होने के कारण कामजी यात्री को छोड़ दिया गया।

बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने मिर्जापुर में चुनावी सभा को किया संबोधित

मोदी के शासनकाल में अपर कास्ट ब्राह्मण समाज का किया जा रहा है उत्पीड़न: मायावती

- विरोधी पार्टी हवा बनाने के लिए मीडिया सर्वे, ओपीनियन पोल का ले रहे हैं सहारा
- बसपा की सरकार केंद्र में आने के बाद मुस्लिम समाज का शोषण व उत्पीड़न रोका जाएगा
- समाज के लोगों को जारी हवा हवाई घोषणा पत्रों के भ्रम में नहीं आयें



किया जा रहा है। विभिन्न पार्टियां किस्म-किस्म के हथकंडे अपना रही हैं। साम, दाम, दंड व भेद अपना कर सत्ता हथियाने में लगी हैं। कहा कि विरोधी पार्टी हवा बनाने के लिए मीडिया सर्वे, ओपीनियन पोल का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न पार्टियों के जारी किए गए हवा हवाई सर्वे और वादों के भ्रम में न आएं। कहा कि सभी पार्टियां चुनावी घोषणा पत्र तो जारी करती हैं पर उन पर काम नहीं करती। कहा कि चुनाव जीतने के बाद इनके वादों पर काम नहीं किया जाता। उन्होंने

कहा कि हमारी पार्टी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती। हम कहने में नहीं करने में विश्वास करते हैं। जिसका नकल कुछ पार्टियों करती हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को कुछ राशन दिया जा रहा है। जिससे उनका स्थायी रूप से भला होने वाला नहीं है।

बसपा सभी के हितों को ध्यान में रख कर काम करेगी

क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सबके हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

मुफ्त राशन आप के ही टैक्स से दिया जा रहा

मुफ्त राशन की आड़ में वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। कहा कि राशन सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है। आपके टैक्स से राशन दिया जा रहा है। इसमें भाजपा व आरएसएस की कोई भूमिका नहीं है। कहा कि गरीबी को दूर करने के लिए हर हाथ को काम देने का काम बसपा ने अपने चार बार के कार्यकाल में किया है। काफी वर्षों से बढ़ रही बेरोजगारी व महंगाई से जनता परेशान है। धर्म की आड़ में मुस्लिम समाज का शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है। जिसे बसपा की सरकार केंद्र में आने के बाद उसे रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य सरकारी की तरह समाज के लोगों को भला न देकर रोजी-रोटी दिलाने का काम किया जाएगा। उन्होंने समाज के लोगों को जारी हवा हवाई घोषणा पत्रों के भ्रम में नहीं आने को कहा। उन्होंने कहा कि हर हाल में विपक्षी पार्टियों को सता में आने से रोकना है। जिन्हें वर्षों से आप आजमा चुके हैं। बसपा केंद्र की सरकार में आती है तो पूरे देश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना के साथ काम किया जाएगा।

उन्होंने महापुरुषों का नाम लेते हुए कहा कि उनके सपनों को पूरा करने का काम बसपा कर रही है। वोट वाले दिन बसपा के प्रत्याशियों को हाथी के सामने लगे बटन को दबाने का आह्वान किया। मिर्जापुर लोकसभा प्रत्याशी मनीष त्रिपाठी, भदोही लोकसभा प्रत्याशी हरि शंकर सिंह और राबट्सगंज सोनभद्र के

प्रत्याशी धनेश्वर गौतम के समर्थन में वोट मांगा। पूर्वांचल के तीन जिलों की पांच लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 25 मई को चुनाव होंगे। इन सीटों पर गुरुवार की शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इन पांच सीटों में भदोही, आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर और मखलीशहर की लोकसभा सीट शामिल है।

बुद्ध पूर्णिमा: गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

केटी न्यूज/वाराणसी

गुरुवार को वैशाख पूर्णिमा पर काशी के गंगा घाट पर सुबह से देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। दशाश्वमेध समेत अन्य घाटों पर सुबह 5 बजे से श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे हैं। उसके बाद नए वस्त्र धारण कर दान-पुण्य कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने इस मौके पर मां गंगा के आगे हाथ जोड़कर अपने परिवार की सलामती के प्रार्थना भी की। काशी के पुरोहितों का कहना है कि बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा नदी में स्नान करने के साथ ही दान पुण्य करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान के बाद भगवान भास्कर को गंगा जल अर्पण करने के अलावा दान पुण्य करने के बाद लोगों को पाप से मुक्ति मिलती है। बुद्ध पूर्णिमा पर्व पर काशी में गंगा नदी में स्नान करने के लिए आने वाले पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जल पुलिस और एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। जल पुलिस गंगा नदी में पेट्रोलिंग करते हुए लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है।



स्नान करने के बाद दान और पुण्य का एक अलग ही महत्व

बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर काशी में गंगा घाट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के अलग-अलग शहरों से श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ पहुंची हुई है। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन पवित्र गंगा में स्नान करने के बाद दान और पुण्य का एक अलग ही महत्व है। कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं। इसी कारण बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर स्नान करने का विशेष महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा यानि भगवान विष्णु गंगाजल में निवास करने का धरती पर भगवान बुद्ध रूप में अवतरण का दिन। बुद्ध पूर्णिमा के स्नान को लेकर गंगा घाटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आये हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी पहुंच गए थे। मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध के रूप में भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया था। भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ और आज ही के दिन भगवान बुद्ध की धरती से विदाई हुई। आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने सुदामा को विनायक उपवास रखने का महत्व बताया था। भगवान ने नृसिंह अवतार लिया था। मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने और गंगा की पूजा अर्चना करने से असीम पुण्य का लाभ मिलता है।

सहेलियों के साथ गंगा स्नान करने गई बालिका डूबी, शव बरामद

मिर्जापुर। मिर्जापुर जिले के विन्धाचल थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुर स्थित राम गंगा घाट पर गुरुवार की सुबह सहेलियों के साथ गंगा स्नान करते समय गहरे पानी में जाने से दो बालिकाएं डूबने लगीं। मौके पर मौजूद लोगों ने एक बालिका को बचाया, दुसरी गंगा में समा गई। बालिका की गंगा में डूबने की सूचना गांव में पहुंची तो बस्ती के सैकड़ों लोगों की भीड़ गंगा किनारे पहुंच गई। सूचना पर पहुंची विन्धाचल पुलिस स्थानीय गोताखोर व एसडीआरएफ की मदद से करीब दो घंटे बाद बालिका का शव गंगा नदी से गोताखोरों ने ढूढ़ लिया। क्षेत्र के शिवपुर निहाद बस्ती निवासी कुमारी पायल (10) पुत्री शंकर निहाद अपने सहेलियों के साथ गंगा स्नान करने के लिए गईं हुई थी। गंगा स्नान करते समय कुमारी समेत दो बालिका डूबने लगीं। राधिका (08) पुत्री सुरेश निहाद को बचा लिया गया, लेकिन पायल निहाद गहरे पानी में डूब गई। करीब दो घंटे बाद स्थानीय गोताखोरों ने बालिका का शव बरामद कर लिया।

गोसेवा में भी रमे रहे मुख्यमंत्री, मंदिर परिसर का किया भ्रमण

देवीपाटन शक्तिपीठ में सीएम योगी ने की आराधना

- मां आदिशक्ति से की प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना
- शक्तिपीठ में आए श्रद्धालुओं का सीएम ने जाना कुशलक्षेम, बच्चों को दुलारकर गिफ्ट की चॉकलेट

केटी न्यूज/बलरामपुर

युद्ध स्तरीय चुनाव प्रचार की व्यस्तता के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार सुबह तुलसीपुर स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ में मां आदिशक्ति, जगत जननी की विधिवत आराधना कर प्रदेश वासियों



के सुख-समृद्धि की कामना की। देवीपाटन माता का यह मंदिर मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में शामिल है और इसकी अपार धार्मिक-आध्यात्मिक ख्याति है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी

आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संग एक रैली में मंच साझा करने के साथ कुल छह जनसभाओं को संबोधित किया। कल की आखिरी जनसभा श्रावस्ती संसदीय क्षेत्र में करने के बाद उन्होंने बलरामपुर के तुलसीपुर देवीपाटन धाम में रात्रि

प्रवास किया। गुरुवार सुबह उन्होंने देवीपाटन शक्तिपीठ में मां दुर्गा का दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां की गहन आराधना की और मातारानी से लोकमंगल की कामना की। सीएम योगी जब भी बलरामपुर आते हैं, मां के इस दरबार में हाजिरी जरूर लगाते हैं। देवीपाटन शक्तिपीठ में पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान शक्तिपीठ में आए श्रद्धालु उन्हें देखकर उत्साहित हो गए और जय श्रीराम का जयकारा लगाने लगे। सीएम योगी ने उनका अभिवादन कर हालचाल जाना। श्रद्धालुओं के साथ आए उनके बच्चों को देख सीएम योगी का बाल प्रेम

एक बार फिर स्वतः स्फूर्त नजर आया। उन्होंने बच्चों को खूब दुलार किया। उनका नाम, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछने के साथ ही खूब पढ़ने और खूब आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। इस बीच मुख्यमंत्री के हाथों चॉकलेट गिफ्ट मिलते ही इन बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। देवीपाटन शक्तिपीठ में हर बार की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां की गोशाला में भी पहुंचे। यहां उन्होंने गोवंश को गुड रोटी खिलाकर उनकी सेवा की। काफी देर तक गोसेवा में रमे रहे मुख्यमंत्री ने गोवंश की समुचित देखभाल के लिए वहां के कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।

DR. JAGNARAYAN SINGH MEMORIAL NURSING INSTITUTE
Dumraon (Buxar) Bihar 802119
Run & Managed by Raghurib Singh Chikitsalaya
केवल ANM कोर्स के लिए
Cont - 7488025032, 9431682605 | Email- sakarsingh83@gmail.com

रघुवीर सिंह चिकित्सालय संस्थापक स्व. डॉ. जगन्नाथरायण सिंह स्व. डॉ. अजीत कुमार सिंह दुनमुन सिंह दुमरांव बक्सर	डॉ० सक्कर कुम्वर एमबीबीएस, एनएसएलएनए एक्स सीनियर रेजिडेंट, गुरुगोविन्द सिंह हॉस्पिटल नई दिल्ली
डॉ० मोनिका सिंह एमबीबीएस लखनऊ स्त्री रोग विशेषज्ञ एक्स रेजिडेंट डॉ० दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल नई दिल्ली	डॉ० नन्द किशोर सिंह एमडीएस डॉ० सिद्धार्थ सिंह बीडीएस बुधवार २५

नोट: कूरवीर द्वारा रज्जी प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है



आम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की कहानी

कभी 42 तो कभी सिर्फ एक प्रत्याशी ही जीता

देश के पहले आम चुनाव में 37 निर्दलीय सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। 2019 लोकसभा के चुनाव में कुल 3,461 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इस चुनाव में महज 4 निर्दलीय उम्मीदवारों को ही सफलता मिली थी। देश में इन दिनों हर ओर चुनाव की चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनावों के तारीखों की घोषणा के साथ ही सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। केंद्र की सत्ताधारी भाजपा लोकसभा चुनावों के लिए अधिकतर उम्मीदवारों के नाम का एलान कर चुकी है। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अपने कई प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इसके अलावा अन्य दल भी कई सीटों पर अपने चेहरों का एलान कर रहे हैं। इस बीच कुछ सीटें ऐसी भी हैं, जहां संबंधित पार्टियों से टिकट कटने पर उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में मैदान में उतर गए हैं। हालांकि, यह कोई पहली बार नहीं है जब पार्टियों से असंतुष्ट लोग स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हों। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन सत्ताधारी दल भाजपा को निर्दलियों की वजह से काफी नुकसान हुआ था। जानते हैं कि लोकसभा चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों का इतिहास क्या रहा है? कब कितने निर्दलीय चुनाव जीतकर सांसद बने? 2019 में कितने निर्दलीय उम्मीदवारों को सफलता मिली थी?

पहले ही चुनाव में 37 निर्दलीय सांसद बने

पहली लोकसभा के चुनाव 1951-52 में हुए थे। देश के पहले आम चुनाव में कुल 37 निर्दलीय सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। दूसरी लोकसभा में निर्दलीय सांसदों की संख्या में इजाफा हुआ। दूसरी लोकसभा के चुनाव 1957 में संपन्न हुए थे। इस चुनाव में कुल 42 निर्दलीय सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। तीसरी लोकसभा में निर्दलीय सांसदों की संख्या आधे से भी ज्यादा कम गई। 1962 में हुए लोकसभा के चुनावों में कुल 20 निर्दलीय प्रत्याशी सांसद बने। चौथी लोकसभा में निर्दलीय सांसदों की संख्या में एक फिर बढ़ोतरी हुई। 1967 में हुए चुनाव में 35 निर्दलीय सांसद चुने गए। पांचवीं लोकसभा के चुनाव 1971 में कराए गए थे। इस बार चुनाव जीतने वाले निर्दलियों की संख्या घट गई। इस चुनाव में महज 14 निर्दलीय सांसद चुने गए। आपातकाल के बाद हुए 1977 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय सांसदों का प्रतिनिधित्व फिर घट गया। छठी लोकसभा में केवल 9 निर्दलीय सांसद बने। सातवीं लोकसभा में निर्दलीय सांसदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। 1980 में



9 निर्दलीय लोकसभा सांसद बने। 1984 में निर्दलीय सांसदों का प्रतिनिधित्व में सुधार हुआ। इस तरह से आठवीं लोकसभा में 13 स्वतंत्र उम्मीदवारों को जीत मिली। 1989 में निर्दलीय सांसदों की संख्या मामूली कमी आई। नौवीं लोकसभा में केवल 12 स्वतंत्र उम्मीदवार संसद के निचले सदन तक पहुंचे।

1991 में एक केवल एक निर्दलीय सांसद बने- 1991 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय सांसदों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल घट गया। 10वीं लोकसभा में केवल एक निर्दलीय सांसद चुने गए। लोकसभा के लिए निर्वाचित निर्दलीय सांसदों की सबसे कम संख्या 1991 में ही थी। 11वीं लोकसभा में संसद में निर्दलीय सांसदों की हिस्सेदारी में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला। 1996 में हुए चुनाव में 9 निर्दलीय लोकसभा सांसद बने।

देश में इन दिनों हर ओर चुनाव की चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनावों के तारीखों की घोषणा के साथ ही सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। केंद्र की सत्ताधारी भाजपा लोकसभा चुनावों के लिए अधिकतर उम्मीदवारों के नाम का एलान कर चुकी है। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अपने कई प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इसके अलावा अन्य दल भी कई सीटों पर अपने चेहरों का एलान कर रहे हैं।

2019 में कितने निर्दलीय उम्मीदवारों को सफलता मिली थी?

2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। 17वीं लोकसभा के चुनाव में कुल 8,054 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, जिनमें से 3,461 निर्दलीय थे। 3,461 निर्दलीय उम्मीदवारों से 3,449 की जमानत जम्ब हो गई थी। महज 4 ही निर्दलीय जीतकर संसद पहुंचे थे। महाराष्ट्र की अमरावती सीट से निर्दलीय उतरी नवनीत राणा 36,951 वोटों से चुनाव जीती थीं। असम की कोकराझार लोकसभा सीट से नबा कुमार सरानिया 37,786 मतों से जीतकर संसद पहुंचे थे। दादरा और नगर हवेली सीट से डेलकर मोहनभाई सांजीभाई को 9,001 वोटों से जीत मिली थी। वहीं, कर्नाटक की मांड्या सीट से सुमलता अंबरीश ने 1,25,876 मतों के बड़े अंतर से चुनाव जीता था।

12वीं लोकसभा यानी 1998 में निर्दलीय सांसदों की संख्या घटकर 6 हो गई। 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव कराए गए। इस चुनाव में भी 6 निर्दलीय सांसद पहुंचे। 14वीं लोकसभा में 9 निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। इस लोकसभा के चुनाव के 2004 में हुए थे। 2009 में हुए 15वीं लोकसभा चुनाव में निर्दलीय सांसदों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव कराए गए थे। इस चुनाव में महज 3 स्वतंत्र उम्मीदवार सांसद चुने गए।

बहुजन समाज पार्टी ने भले ही सभी सीटों पर अभी अपने प्रत्याशी न उतारे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग-अलग राज्यों में तूफानी दौरे का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। बहुजन समाज पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक, बुआ भतीजे यानी मायावती और आकाश आनंद अगले 60 दिनों के भीतर तकरीबन 65 से ज्यादा जनसभाएं करने वाले हैं।

बुआ-भतीजे के यूपी नापने का बना ऐसा

'हेलीकॉप्टर प्लान'

रणनीतिकारों ने आकाश आनंद के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनावी जनसभाओं के आगाज का खाका खींचा है। इसके चलते सबसे पहले 6 अप्रैल को आकाश आनंद नगीना से अपनी जनसभाओं की शुरुआत करने वाले हैं। नगीना के बाद 7 अप्रैल को आकाश दौरे रहने वाला है। उसके बाद मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद 13 अप्रैल को अलीगढ़, हाथरस और 17 अप्रैल को सहारनपुर में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि पहले चरण के चुनावों से पहले आकाश आनंद उत्तर प्रदेश की उन सभी आठ लोकसभा सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं करेंगे, जबकि बसपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के पहले चरण में महज एक सप्ताह पहले ही सियासी मैदान में उतरेंगी।



(आशीष तिवारी)

बहुजन समाज पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि पहले चरण के चुनावों से पहले आकाश आनंद उत्तर प्रदेश की उन सभी आठ लोकसभा सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं करेंगे, जबकि बसपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के पहले चरण में महज एक सप्ताह पहले ही सियासी मैदान में उतरेंगी।

बहुजन समाज पार्टी ने भले ही सभी सीटों पर अभी अपने प्रत्याशी न उतारे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग-अलग राज्यों में तूफानी दौरे का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। बहुजन समाज पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक, बुआ भतीजे यानी मायावती और आकाश आनंद अगले 60 दिनों के भीतर तकरीबन 65 से ज्यादा जनसभाएं करने वाले हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में चुनावी शुरुआत मायावती से पहले उनके भतीजे आकाश आनंद करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की योजना के मुताबिक, इस सप्ताह के अंत से बहुजन समाज पार्टी की ताबड़तोड़ जनसभाएं शुरू हो जाएंगी। पार्टी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार की कमान आकाश आनंद के जिम्मे सौंपी गई है। पार्टी के

खुर्जा और बुलंदशहर में रहेंगे। जहां पर वह अलग-अलग रैलियां और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के रणनीतिकारों ने 11 अप्रैल तक का पूरा शेड्यूल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए तय किया है। बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद को 8 अप्रैल को बरेली और 11 अप्रैल को पश्चिम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण इलाके मथुरा और आगरा के लिए तय किया है। एक हफ्ते तक उत्तर प्रदेश में रैलियां को करने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने दक्षिण भारत के राज्यों में चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी दी है। बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के मुताबिक, आकाश आनंद का दक्षिण का दौरा महज एक दिन का संक्षिप्त

पहले चरण में महज एक सप्ताह पहले ही सियासी मैदान में उतरेंगी। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के मुताबिक, उत्तर प्रदेश का यह पहला चुनाव है जिसमें मायावती से पहले और उनसे ज्यादा शुरुआती चरण में जन सभाएं करने वाले हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि मायावती का उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद आकाश आनंद के लिए यह लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं। यही वजह है कि पार्टी की ओर से उनको बड़ी जिम्मेदारी देते हुए चुनावी प्रचार की पहले और सबसे बड़ी कमान भी सौंपी गई है।

बहुजन समाज पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कई राज्यों में सियासी तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। इससे पहले वह राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत दक्षिण के भी अन्य राज्यों में सियासी कसरत कर चुके हैं। राजनीतिक जानकार प्रद्युम्न कुमार कहते हैं कि क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के लिए हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में आकाश आनंद की असली परीक्षा तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में होगी है।

यदुवीर कृष्णादत्त चामराजा वाडियार के इलेक्शन एफिडेविट के अनुसार, उनका पास अपना खुद का कोई घर, जमीन या कार नहीं है। मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि यदुवीर कृष्णादत्त चामराजा वाडियार ने सोमवार को इलेक्शन एफिडेविट में अपनी संपत्ति और कर्ज के बारे में जानकारी दी। यदुवीर कृष्णादत्त के नामांकन पत्र के अनुसार, उनके पास पांच करोड़ रुपये की संपत्तियां हैं जबकि उनकी पत्नी त्रिषिका कुमारी और उनके एक डिपेंडेंट के पास क्रमशः-1.04 करोड़ रुपये और 3.64 करोड़ रुपये की संपत्ति है।

मैसुरु-ये कैसे 'महाराज'?

● नहीं है अपना खुद का घर, जमीन और गाड़ी, भाजपा के टिकट पर लड़ रहे चुनाव

लोकसभा चुनाव 2024 में कई पूर्व राजघरानों से जुड़े लोग भी किस्मत आजमा रहे हैं। इन्हीं हस्तियों में से एक हैं मैसुरु के पूर्व राजपरिवार से संबंध रखने वाले यदुवीर कृष्णादत्त चामराजा वाडियार मैसूर-कोडगु लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं।

यदुवीर कृष्णादत्त चामराजा वाडियार मैसूर-कोडगु लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भी कर दिया है। यदुवीर कृष्णादत्त चामराजा वाडियार के इलेक्शन एफिडेविट के अनुसार, उनका पास अपना खुद का कोई घर, जमीन या कार नहीं है। मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि यदुवीर कृष्णादत्त चामराजा वाडियार ने सोमवार को इलेक्शन एफिडेविट में अपनी संपत्ति और कर्ज के बारे में जानकारी दी। यदुवीर कृष्णादत्त के नामांकन पत्र के अनुसार, उनके पास पांच करोड़ रुपये की संपत्तियां हैं जबकि उनकी पत्नी त्रिषिका कुमारी और उनके एक डिपेंडेंट के पास क्रमशः-1.04 करोड़ रुपये और 3.64 करोड़ रुपये की संपत्ति है।

सिर्फ 32 साल है यदुवीर कृष्णादत्त चामराजा वाडियार की उम्र

यदुवीर कृष्णादत्त चामराजा वाडियार की उम्र अभी

महज 32 साल है। मैसुरु लोकसभा सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी एम लक्ष्मण से है, वह कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं।

मैसुरु में बीजेपी - कांग्रेस के बीच होता है मुकाबला- मैसुरु लोकसभा सीट पर आमतौर पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता है। इस सीट पर पहली बार बीजेपी का कमल साल 1998 में खिला। इसके बाद साल 1999 में कांग्रेस जीतने में सफल रही जबकि साल 2004 में इस सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करने में सफल रही। साल 2009 में यहां बाजी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के हाथ लगी। पिछले दो लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी के प्रताप सिम्हा ने जीत दर्ज की।

साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रताप सिम्हा को 5,03,908 वोट मिले। उनके सामने चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस प्रत्याशी को 4,72,300 वोट हासिल हुए। जेडीएस के कैडिडेट को 1,38,587 वोट हासिल हुए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रताप सिम्हा ने अपनी जीत का अंतर बढ़ाया। प्रताप सिम्हा को 6,88,974 वोट मिले जबकि उनके सामने चुनाव लड़ने कांग्रेस के सीएच विजयशंकर को 5,50,327 वोट हासिल हुए।





गर्मियों में न खाएं-पिएं 5 ठंडी चीजें

गर्मियों का मौसम चरम पर है। चिलचिलाती गर्मी में शरीर को ठंडा रखने के लिए अधिकतर लोग ठंडा पानी या अन्य ठंडे पेय पदार्थों का खूब सेवन करते हैं। बर्फ का पानी, आइसक्रीम, नींबू पानी और योगर्ट जैसी चीजों का खूब सेवन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों से शरीर ठंडा रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन चीजों को आप ठंडा मानते हैं, असल में वो शरीर में भयंकर गर्मी पैदा करती हैं। आयुर्वेद अनुसार, इसमें कोई शक नहीं है कि गर्मियों में बर्फ का ठंडा पानी, नींबू या टमाटर जैसी चीजें आपके शरीर को ठंडक नहीं देती बल्कि पाचन अग्नि को बढ़ाने का काम करती हैं, जिससे शरीर में ज्यादा गर्मी पैदा होती है। इन चीजों के अधिक सेवन से इस भयंकर गर्मी में आपकी हालत खराब हो सकती है।

गर्मियों के मौसम में लोग शरीर को ठंडा रखने के लिए आइसक्रीम, बर्फ का पानी जैसी चीजों का खूब सेवन करते हैं, लेकिन यह ठंडी चीजें असल में शरीर में गर्मी पैदा करती हैं।

बर्फ का पानी
गर्मियों में ज्यादातर लोग पानी को ठंडा करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल करते हैं। इससे शरीर को ठंडक तो मिलती है लेकिन आयुर्वेद में बर्फ के पानी के प्रभाव को ठंडा नहीं माना गया। बर्फ का पानी पाचन अग्नि को हल्का कर सकता है। इससे शरीर को पोषक तत्वों को पचाने में मुश्किल हो सकती है।

योगर्ट
गर्मियों में योगर्ट का खूब इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे पचाना मुश्किल होता है और यह नेचर में गर्म होता है। आयुर्वेद में इस खाद्य पदार्थ ओ अभिधादी माना गया है जिसका मतलब है यह ब्लॉकज का कारण बन सकता है।

आइसक्रीम
गर्मियों में आइसक्रीम खाना भला किसे पसंद नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइसक्रीम में फेट और शुगर की मात्रा अधिक होती है जिस वजह से इसे पचाना बहुत ही मुश्किल काम है, जिस वजह से इसे पचाने के लिए शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है।

नींबू
नींबू विटामिन सी का भंडार है और इसका ठंडा प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार इसके खट्टे स्वाद और गर्म तासीर के कारण यह पाचन अग्नि को बढ़ाता है शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है।

टमाटर
टमाटर और टमाटर के रस को ठंडा माना जाता है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार इसका खट्टा स्वाद और एसिडिक इफेक्ट की वजह से यह शरीर में गर्मी पैदा कर सकता है।



गर्मियों के मौसम में ट्रिगर हो सकता है माइग्रेन

माइग्रेन एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं में ये काफी कॉमन है। रिपोर्ट्स की मानें तो ये एक ऐसा सिरदर्द है जो 4 घंटे से लेकर 72 घंटों तक रह सकता है। इस परेशानी के दौरान व्यक्ति को उल्टी, थकान, ज्यादा रोशनी और ज्यादा आवाज से परेशानी हो सकती है। गर्मी के मौसम में ये परेशानी बढ़ सकती है। गर्मी, डिहाईड्रेशन, तेज रोशनी, कम नींद के कारण गर्मियों के मौसम में माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है हालांकि, इससे बचाव के लिए आप कुछ आसान तरीकों को अपना सकते हैं।

- गर्मी के मौसम में माइग्रेन से बचे रहने के लिए खुद को हाइड्रेट रखें। इसके लिए

- अपने साथ एक पानी की बोतल रख सकते हैं। दिन भर 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी है।
- माइग्रेन से बचे रहने के लिए अपने रूटीन को सही रखें। खाने और सोने की टाइमिंग का सही होना जरूरी है। अगर आप कहीं छुट्टियों के लिए बाहर जा रहे हैं तो भी अपने खाने का पूरा ख्याल रखें।
- इससे बचने के लिए अपनी डायट का भी पूरा ख्याल रखें। इसके लिए कॉफी, रेड वाइन, चॉकलेट, चीज, फेश फल और सब्जियों को खाएं। खीरा, तरबूज, जैसे फलों को डायट में जरूर शामिल करें।
- अगर धूप में कहीं बाहर निकल रहे हैं तो

अपने सिर को किसी टोपी या फिर रुमाल से कवर करें। इसी के साथ आंखों पर धूप का चश्मा भी लगाएं। खूब रोशनी के कारण भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। काम के साथ ही रिलैक्स करना बेहद जरूरी है। अगर आप काम पर हैं तो अपने काम को पूरी तरह से मनेज करें। समय-समय पर ब्रेक लेते रहें।

माइग्रेन का दर्द होने पर क्या करें

अगर आपको माइग्रेन का दर्द हो रहा है तो सबसे पहले किसी शांत कमरे में जाएं और फिर कुछ देर के लिए अंधेरे में रिलैक्स करें। इसी के साथ खुद को हाइड्रेट करने के लिए एक गिलास पानी पीएं। अगर आप इसके लिए कोई दवाई खाते हैं तो उसे भी खा लें।

तेज धूप हमारे शरीर से एनर्जी खींच लेती है। साथ ही कई बीमारियों का खतरा भी रहता है। ऐसे में आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कुछ टिप्स दिए हैं जिनसे आप एनर्जेटिक रहने के साथ कूल भी रह सकते हैं।



गर्मी और हीट स्ट्रोक को मात देंगे ये तरीके

गर्मी के मौसम ने लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया है। ऐसे में हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ गया है। चिलचिलाती धूप और बढ़े तापमान की मार से प्रभावित हुए बिना भी आप इस सीजन का मजा ले सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है इसका तरीका आयुर्वेदिक डॉक्टर ने अपने इस्टा पोस्ट में बताया है। उन्होंने हेल्दी और एनर्जेटिक बने रहने के लिए 3 काम करने की सलाह दी है। गर्मी बढ़ते ही बीमारियां होने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में अपने रूटीन में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कुछ टिप्स अपने

दिन में सोना
आयुर्वेद में गर्मी के मौसम के अलावा हर सीजन में दिन में सोना मुना है। गर्मी में दिन के बाद ठंडी जगह पर सोने की सलाह दी जाती है। वजह यह है कि मौसम गर्म होता है और सूरज सारी एनर्जी खींच लेता है। गर्मी में दिन के वक्त सोने से आपकी एनर्जी बनी रहती है। इससे आपको शारीरिक और मानसिक थकान नहीं होती। दिन में सोने से कफ भी बढ़ता है जो कि गर्मी में शुष्क और गर्म मौसम होने की वजह से कम हो जाता है।

प्राकृतिक रूप से ठंडे पेय
गर्मी के मौसम में मिट्टी के बर्तन में ठंडे किए हुए बर्तन का पानी पीएं। इनमें कमल, गुलाब, खसखस, मिंट, या धनिया डालें तो आप हीट स्ट्रोक से बचेंगे और प्राकृतिक रूप से बॉडी कूल रहेगी।

चांद की रोशनी में सोएं
आयुर्वेद यह सलाह देता है कि गर्मी के मौसम में रात के वक्त चांद की रोशनी में सोएं। गर्मी की वजह से जो थकान हो जाती है, रात की चांदनी में सोने से वो थकान दूर होती है। चंद्रमा की रोशनी आपका दिमाग और शरीर शीतल करती है। इससे आपको अच्छी नींद आती है। इसलिए रात में ठंडक के लिए कूलर और एसी के बजाय मून लाइट में सोएं।



हड्डियों का सारा कैल्शियम छीन लेती है चाय-कॉफी

दूध पीने से कैल्शियम मिलता है, लेकिन कई लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आता। इसलिए इस आर्टिकल में न्यूट्रिशनस्ट ने कैल्शियम फूड बताए हैं, जो काफी सारा कैल्शियम देते हैं।

हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम जरूरी है। इसके बिना हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और टूटने का खतरा बढ़ जाता है। कैल्शियम ना सिर्फ हड्डियों में जान भरता है, बल्कि नाखून, दांत और दिमाग के लिए भी जरूरी होता है। अगर आप चाय-कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं तो अनजाने में हड्डियों को कमजोर कर सकते हैं। क्योंकि, इसमें कैफीन की भारी मात्रा होती है। कई शोध में कैफीन को हड्डियों से कैल्शियम कम करने वाला पाया गया है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि इस खतरा को कम करने के लिए डाइट में कैल्शियम फूड्स को पर्याप्त मात्रा में शामिल करना चाहिए।

काले तिल
न्यूट्रिशनस्ट अंजलि मुखर्जी ने काले तिल को कैल्शियम का बेस्ट सोर्स बताया है। इसके साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन और हेल्दी फेट भी मिलते हैं। इन्हें आप खाने, सलाद, स्मूदी या तिल चक्की बनाकर खा सकते हैं।

दही
दही में मौजूद कैल्शियम आसानी से पच जाता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इस के अंदर इन्सुलिन बढ़ाने वाले गुण भी होते हैं, जो बीमारी से बचाते हैं। आप रोजाना की डाइट में इसे आसानी से शामिल कर सकते हैं।

साबुत दाल और फली
न्यूट्रिशनस्ट ने बताया कि अधिकतर साबुत दालों और फलियों में कैल्शियम कूट-कूटकर भरा होता है। हड्डी, नाखून, दांत, दिमाग आदि को मजबूत बनाने के लिए आप राजमा, काबुली चना, काला चना, हरा चना, चोली आदि को ध्याज-टमाटर के साथ पकाकर खाएं।

हरी सब्जियां और चटनी
मेथी, ब्रोकली, पालक, मूली के पत्तों और अन्य हरी सब्जियों में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुदीने और धनिया के पत्तों की चटनी भी भरपूर कैल्शियम प्रदान करती है।

नट्स
कैल्शियम के लिए अखरोट, अंजीर, खजूर और खुबानी खाना चाहिए। इन नट्स से आपको प्रोटीन, हेल्दी फेट्स और विटामिन्स भी मिल जाते हैं। जिससे पूरे स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है।



दूध भी हो सकता है नुकसानदेह इन बीमारियों में भूलकर भी ना पीएं

दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। लेकिन कुछ बीमारियों में शरीर को दूध पीने से नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी नहीं कि दूध पीकर आप हेल्दी और फिट बने रहें।

दूध को संपूर्ण आहार माना गया है। नवजात शिशु से लेकर बड़े बच्चों की डाइट में दूध का होना बेहद जरूरत होती है। वहीं यंग और एडल्ट लोगों को भी दूध पीने की सलाह दी जाती है। कैल्शियम और मिनरल्स से भरपूर दूध बॉडी को सारे जरूरी पोषण देने में मदद करता है। साथ ही दांत और हड्डियों को मजबूत भी बनाता है। इसलिए हेल्थ

एक्सपर्ट बच्चों को ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों को डाइट में दूध लेने की सलाह देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बॉडी को दूध फायदा ही करे। कुछ बीमारियों में दूध पीना समस्या को बढ़ा सकता है। इस बारे में डायटीशियन का कहना है कि कुछ बीमारियों में दूध पीने से शरीर की परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए इन 5 तरह की बीमारियों में दूध से दूर ही रहने में भलाई है।

पीसीओएस
जिन महिलाओं को लेट पीरियड आने और पीसीओएस की समस्या रहती है। उन्हें दूध पीने से बचना चाहिए। दूध पीने से बॉडी में एंजोजेन और इंसुलिन का लेवल बढ़ता है। जिससे पीसीओएस की समस्या से पीड़ित महिलाओं में हार्मोनल इंबैलेंस को बढ़ावा मिलता है। हार्मोनल इंबैलेंस में दूध नहीं पीना चाहिए।

लीवर की समस्या में दूध से रहें दूर
किसी को अगर लीवर से जुड़ी समस्या जैसे फेटी लीवर या लीवर में सूजन की समस्या हो तो उसे दूध से दूर रहना चाहिए। लीवर की गड़बड़ी होने पर लीवर दूध को ठीक से पचा नहीं पाता। जिसकी वजह से लीवर में सूजन की समस्या बढ़ जाती है। साथ ही शरीर में फेट जमा होना शुरू हो जाता है।

इंफ्लेमेशन की समस्या
अगर किसी के शरीर में सूजन से जुड़ी बीमारी है तो उसे दूध पीने से बचना चाहिए। दूध में मौजूद सेचुरेटेड फेट बॉडी में इंफ्लेमेशन को बढ़ा देता है। कई सारी रिसर्च में दूध को सूजन बढ़ाने और सूजन से जुड़ी दिक्कतों को पैदा करने वाला भी बताया गया है।

डाइजेस्टिव सिस्टम खराब
कब्ज, गैस, ब्लॉटिंग जैसी समस्या अवसर परेशान करती है तो दूध कतई ना पीएं। कमजोर डाइजेशन होने पर दूध परेशानियों को और बढ़ा देता है।

दूध से एलर्जी
कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है। दूध पीते ही उनके शरीर में प्रतिक्रिया होने लगती है। जिसे लैक्टोज इंटीलरेंस कहते हैं। इसमें दूध में मौजूद लैक्टोज को पचाने में दिक्कत होती है और ब्लॉटिंग, सूजन, गैस जैसी समस्या होने लगती है।

संक्षिप्त समाचार

जहाज बनाने वाली कंपनियों के शेयर बन गए रॉकेट

नई दिल्ली, एजेंसी। जहाज बनाने वाली कंपनियों (शिपबिल्डर्स कंपनियों) के शेयर रॉकेट बन गए हैं। शिपबिल्डर्स कंपनियों के शेयर गुरुवार को 18 पैसे तक चढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा तेजी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड



इंजीनियर्स के शेयरों में आई है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयर गुरुवार को 18 पैसे से अधिक के उछाल के साथ 1424.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयर रिकॉर्ड हाई पर जा पहुंचे हैं। कोचीन शिपयार्ड, शिपिंग कॉरपोरेशन और मडगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है।

रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयर

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयर गुरुवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 18 पैसे से अधिक की तेजी के साथ 1424.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह तेजी मार्च 2024 तिमाही के शानदार नतीजों के बाद आई है। मार्च 2024 तिमाही में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स का प्रॉफिट दोगुना बढ़कर 112 करोड़ रुपये पहुंच गया है। साथ ही, मार्च तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 1000 करोड़ रुपये के लेवल को पार कर गया है। एक साल पहले के मुकाबले कंपनी का रेवेन्यू 69 पैसे बढ़ा है।

कोचीन शिपयार्ड के शेयर गुरुवार को 13 पैसे से अधिक की तेजी के साथ 1843 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों ने गुरुवार को 52 हफ्ते का नया हाई बनाया है। कोचीन शिपयार्ड के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 234.53 रुपये है। कोचीन शिपयार्ड के शेयर गुरुवार को करीब 11 पैसे की तेजी आई है। मडगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयर 7 पैसे से अधिक की तेजी के साथ 3110 रुपये पर जा पहुंचे हैं। मडगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयरों ने भी गुरुवार को 52 हफ्ते का नया हाई बनाया है।

पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर पर अचानक टूट पड़े निवेशक, 11 चढ़ गया भाव



नई दिल्ली, एजेंसी। पीजी ग्रुप की प्रमुख कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान फोकस में हैं। कंपनी के शेयरों में आज सुबह के कारोबार में 11 की बढ़ोतरी हुई और यह 2639.80 रुपये के 52 वीक हाई पर पहुंच गया। शेयरों में यह तेजी चौथी तिमाही के नतीजों के बाद आई है।

78.2 बड़ा कंपनी का प्रॉफिट- मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 71.59 करोड़ रहा, जो 40.17 करोड़ से अधिक है। इसमें 78.2 की तेजी दर्ज की गई है। बता दें कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट प्रमुख भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मैयूफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक है और भारत में प्रमुख कंज्यूमर टिकाऊ वस्तुओं और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांडों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैयूफैक्चरर है।

लंदन से दुबई तक... पूरी दुनिया की होटल इंडस्ट्री में बढ़ रहा भारतीयों का दबदबा

नई दिल्ली, एजेंसी। ग्लोबल होटल इंडस्ट्री पर भारतीयों का दबदबा बढ़ रहा है। पिछले साल यूरोप की सबसे बड़ी होटल चेन एकोर ने हिंदुजा ग्रुप के स्वामित्व वाले लंदन के सबसे महंगे होटल दा ट्रू में रेफ्लस लंदन खोला था। पिछले महीने भारत दौर पर आए एकोर के ग्रुप चेयरमैन और सीईओ सेबेस्टियन वाजिन ने ईटी से कहा था, मैं इस पार्टनरशिप के लिए हिंदुजा परिवार का बहुत आभारी हूँ और हर दिन उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन हिंदुजा समूह अकेला नहीं है। यूरोप, यूएई और यूके जैसे बाजारों में भारतीय मूल के होटल मालिकों की संख्या पिछले कुछ साल में बढ़ रही है। पिछले साल दिसंबर में, इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज ने नए लाइफस्टाइल होटल ब्रांड मीरो को लॉन्च करने की घोषणा की थी। इसके जरिए कंपनी यूरोपीय शहरों में व्यक्तिगत रूप से डिजाइन किए गए होटलों का एक कलेक्शन लॉन्च करना चाहती है।



तब कंपनी ने कहा था कि मीरो ब्रांडेड होटल 2024 की गर्मियों में पेरिस में खुलेंगे। उसके बाद 2025 में लंदन और वियना में खुलेंगे। मैरियर इंटरनेशनल 2027 में रास अल खैमाह के मरजान द्वीप पर अपना पहला डब्ल्यू होटल लॉन्च करेगा। इसके लिए वह भारतीय इन्वेस्टर डालैड्स होल्डिंग के साथ सहयोग करेगा। इसने हयात रिजेंसी देहादून और गोवा में विंडहम रिजॉर्ट जैसे प्रोजेक्ट को विकसित किया है। तमारा की सीईओ और डायरेक्टर शरति शिबूलाल ने 2022 में जर्मनी में मोनी ब्रेमन होटल का अधिग्रहण किया था। उनका कहना है कि वह जर्मनी में निवेश करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, हम तमारा रिजॉर्ट्स ब्रांड को विदेशों में ले जाने का इरादा रखते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि हम अपने मेहमानों के लिए एक यूनिक वैल्यू प्रोजेक्शन बना सकते हैं।


विदेश में मौके

इंडस्ट्री के सूत्रों ने कहा कि भारतीय मूल के होटल मालिकों के विदेशी बाजारों में विस्तार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंसी फर्म होटल्लिवेट के संस्थापक अध्यक्ष मानव थंडानी ने कहा, मध्य पूर्व और यूरोप जैसे बाजारों में भारतीय मूल के होटल निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है। नदीवर्धन जैन ने कहा कि दुबई और रास अल खैमाह जैसे बाजारों में निवेश का शानदार मौका है। इसकी वजह यह है कि वहां मांग काफी मजबूत है, वहां का टूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर काफी विकसित है और टैक्स में भी फायदा है। मेफेयर कंसल्टेंट्स के फाउंडर दीपक जैन ने कहा कि भारतीय होटल मालिकों की नजर खासकर लंदन, स्विट्जरलैंड, दुबई और बाली पर है।

राज हॉस्पिटैलिटी और अरवॉक्स कैपिटल ग्रुप के फाउंडर राज पटेल ने कहा कि अमेरिका में भारतीय मूल के होटल मालिकों की दूसरी पीढ़ी आक्रामक विस्तार योजनाओं पर काम कर रही है। भारतीय मूल के मालिक करीब 80 अरब डॉलर की होटल एसेट्स को कंट्रोल करते हैं। पटेल के पोर्टफोलियो में विंडहम, चाईस और ओयो जैसे ब्रांडों के 42 होटल शामिल हैं। उन्होंने कहा, अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारक कई भारतीय लोग होटल बिजनेस में जाना चाहते हैं। रेडिसन होटल ग्रुप के एमडी और दक्षिण एशिया के रीजनल वाइस-प्रेजिडेंट निखिल शर्मा ने कहा कि रेडिसन अपने ऑनर-फोकरूड इनिशिएटिव और नियर-परफेक्ट रिन्यूअल रेट्स के माध्यम से ग्रोथ का जो मौका देता है, वह वैश्विक विस्तार की तलाश करने वाले भारतीय होटल व्यवसायियों के लिए आकर्षक है। खासकर मध्य पूर्व और यूरोप जैसे बाजारों के लिए यह शानदार मौका है।

दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला पर सरकार ने लगाया जुर्माना

नई दिल्ली, एजेंसी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने बुधवार को कंपनी अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियमों के उल्लंघन को लेकर माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी लिंकडइन इंडिया माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और अन्य लोगों पर जुर्माना लगाया। मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दिसंबर, 2016 में प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंकडइन का अधिग्रहण किया था। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने लिंकडइन इंडिया, नडेला, लिंकडइन के सीईओ रेयान रोस्तान्स्की और सात अन्य व्यक्तियों पर कुल 27,10,800 रुपये का जुर्माना लगाया है।



तथा है मामला

महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियमों के उल्लंघन के लिए लिंकडइन इंडिया पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं नडेला और रोस्तान्स्की पर क्रमशः दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आदेश में जिन अन्य व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें कीथ रेंजर डलिवर, बेंजामिन ओवेन ऑर्नडॉर्फ, मिशेल कैटी लेउंग, लिसा एमिको सातो, आशुतोष गुप्ता, मार्क लियोनार्डो न्द्रेस लेगासी और हेनरी चिनिंग फोंग शामिल हैं। लिंकडइन इंडिया की स्थापना माइक्रोसॉफ्ट समूह की सहायक कंपनी के रूप में की गई है। इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर क्षेत्रीय निदेशक (एनआर) के पास आदेश के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है।

खराब कोयला बेचने के आरोप: बाजार ने अदाणी समूह से जुड़ी नकारात्मक खबरों को किया खारिज, मार्केट कैप बढ़ना जारी

नई दिल्ली, एजेंसी। अदाणी समूह के बाजार पूंजीकरण में बुधवार को लगातार नौवें दिन बढ़त जारी रही। समूह का बाजार पूंजीकरण बुधवार को 16.5 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया, पिछले नौ कारोबारी सत्रों में इसमें 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह तेजी उस दिन भी जारी रही जब लंदन स्थित फाइनेंशियल टाइम्स ने जॉर्ज सोरोस समर्थित ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) के दस्तावेजों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में अदाणी समूह पर धोखाधड़ी करने और वर्ष 2013 में



तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को उच्च मूल्य वाले ईंधन के रूप में निम्न श्रेणी का कोयला बेचने का आरोप लगाया। इससे पता चलता है कि बाजारों ने फाइनेंशियल टाइम्स की ओर से समूह के बारे में की गई रिपोर्टों को खारिज कर दिया है और बाजार का भरोसा अदाणी समूह के शेयरों में बरकरार है। पिछले एक साल में समूह के बाजार पूंजीकरण में लगातार वृद्धि से पता चलता है कि आरोपों के बावजूद, निवेशकों ने अदाणी समूह की कंपनियों में विश्वास जताया है।

गेहूं की जगह हल्दी पर लगाया दांव, महिला पर बरसने लगा पैसा, इनकम डबल!



नई दिल्ली, एजेंसी। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम नर्मदा नदी के तट पर है। यह क्षेत्र अपनी उपजाऊ काली मिट्टी के लिए मशहूर है। इस मिट्टी में अक्वल दर्जे के गेहूं की बंपर पैदावार होती है। सच तो यह है कि नर्मदापुरम को गेहूं उत्पादन के मामले में पूरे पंजाब के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला माना जाता है। नर्मदापुरम के किसान सोयाबीन, गन्ना, चना और धान सहित अलग-अलग फसलों को उगाने के लिए बेहतरीन नहर सिंचाई सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, यहाँ की एक प्रगतिशील किसान कंचन वर्मा ने क्षेत्र में पारंपरिक फसलों के बजाय

हल्दी की खेती शुरू करके कुछ नया करने का फैसला किया। उनका यह दांव बिल्कुल सटीक पड़ा। इस कदम ने उनकी इनकम को डबल कर दिया। प्रयोग करने में रखती है विश्वास। कंचन वर्मा सोमलवाड़ा खुर्द गांव से तारलुक रखती हैं। ऐसा नहीं है कि पारंपरिक फसलों की खेती से वह नुकसान उठा रही थीं। लेकिन, वह बेहतर रिटर्न के लिए नए विकल्प तलाशना चाहती थीं। कंचन मानती हैं कि बतौर किसान खेत में प्रयोग करते रहना चाहिए। प्रयोग करते रहने की कंचन की आदत ही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज साबित हुआ।

2020 में हल्दी की खेती शुरू की। गेहूं, धान और चने के बजाय कंचन वर्मा ने साल 2020 में हल्दी की खेती में कदम रखा। इस सफर में कंचन ने कृषि विज्ञान केंद्र (यूजू) का मार्गदर्शन भी हासिल किया। क्योंकि से मिला मार्गदर्शन लेकर कंचन ने हल्दी की सांगली किसम की खेती शुरू की। हल्दी की यह किसम अपने हाई करक्यूमिन कंटेंट और औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। इस तरह की हल्दी गहरे नारंगी रंग की होती है। मजबूत जड़ों के चलते इसकी बंपर फसल है। पारंपरिक फसलों की तुलना में इसने कंचन की आय को दोगुना कर दिया।

सावधानी से तैयार किया खेत

कंचन वर्मा ने हल्दी की खेती शुरू करने के लिए बहुत सावधानी के साथ भूमि को तैयार किया। मिट्टी की गुणवत्ता समझी। ह्यूमस मटीरियल से भरपूर अच्छी तरह से पानी सोखने वाली रेतीली दोमट मिट्टी का चयन किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीकों को अपनाया। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और कीटों के हमले कम करने के लिए गाय के गोबर और जीवामृत पर भरोसा किया। इन सभी कदमों ने हल्दी पैदावार बढ़ाने में मदद की। लाखों की कमाई

कंचन वर्मा पारंपरिक फसलों की खेती करके प्रति एकड़ करीब 1.5 लाख रुपये कमाया करती थीं। हालांकि, हल्दी की खेती ने उनकी आय को दोगुना करके 3 लाख रुपये कर दिया। पिछले साल कंचन ने 400 क्विंटल की भरपूर फसल हासिल की। इससे उन्हें 12 लाख रुपये की कमाई हुई। कंचन की सफलता एग्रीकल्चर ऑनप्रैक्टिसरीप का उदाहरण है। वह आज गांव में लोगों की प्रेरणा बन चुकी हैं।

आईआईटी 2024 बैच के 7,000 से अधिक छात्रों को अब तक नहीं मिली नौकरी



नई दिल्ली, एजेंसी। एक जमाना था कि हर्यरिंग सीजन शुरू होने से एक दिन पहले ही आईआईटी संस्थानों के बाहर कंपनियों की भीड़ लग जाती थी। लेकिन साल 2024 के बैच को अपने पेशेवर करियर की शुरुआत में ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आईआईटी के सभी 23 परिसरों में करीब 38 छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिला है। आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र धीरज सिंह के आरटीआई आवेदनों के जवाब में यह बात सामने आई है। आईआईटी

दिल्ली ने अपने पूर्व छात्रों को मेल भेजकर मौजूदा बैच को नौकरी दिलाने या इंजीनियरों को नौकरी देने वाली कंपनियों को सिफारिश करने के लिए आईआईटी-बॉम्बे और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ने भी अपने पूर्व छात्रों से संपर्क किया है। आईआईटी-दिल्ली ने संस्थान के पूर्व छात्रों को भेजे ईमेल में कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए प्लेसमेंट सत्र खत्म होने के करीब पहुंच चुका है लेकिन हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, लगभग 400 छात्रों को अभी भी नौकरी नहीं मिल पाई है। इसके मद्देनजर, हम अपने पूर्व छात्रों के नेटवर्क से संपर्क कर रहे हैं, ताकि खातक छात्रों के लिए नौकरी के अवसर प्रदान करने में आपकी सहायता मिल सके। इस मामले में आपका समर्थन और प्रयास न केवल बहुत सराहनीय होगा, बल्कि इन छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी काम करेगा क्योंकि वे अपनी पेशेवर यात्रा शुरू कर रहे हैं।

क्या है कारण

बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ने दो महीने पहले पहली बार अपने पूर्व छात्रों से संपर्क किया था, और कई अन्य संस्थानों ने भी ऐसा किया था। आईआईटी-बॉम्बे ने भी मदद के लिए पूर्व छात्रों से भी संपर्क किया है। हालांकि प्लेसमेंट अभी भी जारी है और जून के अंत तक चलेगा, लेकिन प्लेसमेंट में भाग लेने वाले बैच के लगभग 10 या 250 छात्रों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। आरटीआई से मिले जवाब के मुताबिक पिछले साल 329 उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिली और उनमें से 2022 की कक्षा के 171 उम्मीदवार नौकरी पाने में असफल रहे। बिट्स ग्रुप के कुलपति वी रामगोपाल राव ने कहा कि हर जगह प्लेसमेंट 20 से 30 फीसदी है। अगर कोई संस्थान कह रहा है कि सभी छात्रों को प्लेसमेंट मिल गया है, तो नौकरियों की क्वालिटी में कमी की गुंजाइश है। यह पहला साल है जब चैटजीपीटी और बड़े लेवेज मॉडल ने अपना असर दिखाया शुरू किया है। अगर दो लोग तीन लोगों का काम कर सकते हैं, तो हम पहले ही हर्यरिंग में 30 की कमी कर चुके हैं। पहले ही बहुत ज्यादा हर्यरिंग हो चुकी है। कई देशों में इस साल चुनाव हो रहे हैं, इसलिए कंपनियां इंतजार करो और देखो की नीति अपना रही हैं। सिंह ने कहा, इस वर्ष सभी 23 आईआईटी में 7,000 से अधिक आईआईटी छात्रों को अभी तक कैम्पस प्लेसमेंट के माध्यम से नौकरी नहीं मिली है। दो साल पहले, यह संख्या आधी यानी 3,400 थी। प्लेसमेंट में बैठने वाले छात्रों की संख्या 1.2 गुना बढ़ गई है, वहीं दो वर्षों में नौकरी न मिलने वाले छात्रों की संख्या दोगुनी होकर 2.3 गुना हो गई है।

प्रोत्साहन योजना से बाहर होंगी हीरो इलेक्ट्रिक और बेनलिंग

गलत तरीके से दोनों कंपनियों ने ली सब्सिडी

नई दिल्ली, एजेंसी। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली हीरो इलेक्ट्रिक और बेनलिंग इंडिया को भविष्य में किसी भी सरकारी प्रोत्साहन योजना में शामिल होने से रोक दिया गया है। दोनों को भारी उद्योग मंत्रालय की सभी योजनाओं से दो साल के लिए बाहर कर दिया गया है। दोनों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में तेजी लाने की मंत्रालय की योजना के दूसरे चरण (फेम-2) में दी गई सब्सिडी नहीं लोटाई है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, जांच में पता लगा है कि दोनों कंपनियों ने चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का उल्लंघन किया है। सरकार सब्सिडी नहीं लौटाने वाली इन दोनों कंपनियों ने 200 करोड़ रुपये वापस मांग रही है। मंत्रालय ने उल्लंघन करने वाली सभी कंपनियों- हीरो इलेक्ट्रिक,



ओकीनावा, एमपीयर व्हीकल्स (ग्रीन्स कॉर्टन), बेनलिंग इंडिया, रिवाल्ट इंटेलिक्ॉर्प और एमो मोबिलिटी को पिछले साल मई में ही फेम योजना से बाहर कर दिया था। छह कंपनियों से कुल 469 करोड़ रुपये के करीब लौटाने को कहा गया था। इन छह कंपनियों में एमो मोबिलिटी, ग्रीन्स इलेक्ट्रिक और रिवाल्ट इंटेलिक्ॉर्प ने सब्सिडी की रकम ब्याज के साथ लौटा दी। मगर हीरो इलेक्ट्रिक, ओकीनावा और बेनलिंग ने सब्सिडी व प्रोत्साहन की

रकम वापस नहीं की। इस कारण अक्टूबर व नवंबर में उनके नाम हटा दिए गए। फेम-2 में हीरो इलेक्ट्रिक ने 133 करोड़, ओकीनावा ने 116 करोड़ और बेनलिंग ने 48 करोड़ रुपये सब्सिडी का दावा किया था। ओकीनावा ऑटोटेक अदालत पहुंची - ओकीनावा ऑटोटेक डिफॉल्ट करने वाली इकलौती कंपनी है, जिसका नाम अभी तक नहीं काटा गया। वह दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। हीरो इलेक्ट्रिक ने भी सब्सिडी लौटाने से बचने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दवावा खटखटाया है। एक अधिकारी ने कहा, हम इन कंपनियों को सरकार की सभी योजनाओं से किनारे करने के लिए वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव सौंपेंगे।

संक्षिप्त समाचार

मैनस कार्लसन से उनके घर पर खेलना चुनौतीपूर्ण नहीं: प्रगनानंदा

स्टावंगर, एजेंसी। नॉर्वे शतरंज के 12वें संस्करण के शुरू होने में एक हफ्ते से भी कम समय शेष रहते भारत के शतरंज खिलाड़ी प्रगनानंदा रमेशबाबू इस टूर्नामेंट में खेलने को लेकर बहुत उत्साहित हैं। 27 मई से 7 जून तक होने वाले इस टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैनस कार्लसन, विश्व चैंपियन डिंग लिरेन और विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी हिंकारू नाकामुरा सहित कई सितारे शामिल हैं। 18 वर्षीय रमेशबाबू ने कहा कि मैं नॉर्वे शतरंज में खेलने को लेकर रोमांचित और उत्साहित हूँ। यह अब तक की सबसे मजबूत



फील्ड है जिसमें मैं खेला हूँ। मैं इस टूर्नामेंट को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए एक मौके और चुनौती के रूप में देख रहा हूँ। मैं इस टाइम कंट्रोल टूर्नामेंट की तरफ देख रहा हूँ जो मैं अभी तक नहीं खेला हूँ। पिछले वर्ष फिडे शतरंज विश्व कप में कार्लसन के साथ अपने मुकाबले को याद करते हुए रमेशबाबू ने कहा कि मैं हमेशा अच्छी चुनौती पसंद करता हूँ। पिछले वर्ष विश्व कप के बाद यह मेरा कार्लसन के साथ पहला क्लासिकल मुकाबला होगा। मैं उनके और अन्य के साथ खेलने को लेकर खासा रोमांचित हूँ। यहाँ मिले अनुभव का मुझे भविष्य के टूर्नामेंटों में फायदा होगा। रमेशबाबू ने कहा कि कार्लसन के साथ उनके घर पर खेलना बड़ा चैलेंज नहीं है। आम तौर पर यह उस खिलाड़ी के लिए मायने रखता है जो अपने घर में खेल रहा होता है। लेकिन इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। टूर्नामेंट डबल राउंड रोबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा। क्लासिकल टाइम कंट्रोल फॉर्मेट के इस टूर्नामेंट में हर खिलाड़ी को 40 चालों के लिए 120 मिनट मिलेंगे। हर चाल के साथ 10 सेकंड का इंक्रिमेंट होगा।

ट्रेविस हेड के विकेट ने मुझे विश्व कप 2015 की याद दिलाई: वॉटसन

अहमदाबाद, एजेंसी। मिचेल स्टार्क ने ट्रेविस हेड को गोल्डन डक पर आउट कर आईपीएल 2024 क्वालीफायर 1 में कोलकाता नाइट राइडर्स की आठ विकेट की जीत में अहम भूमिका निभाई। मंगलवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच की दूसरी गेंद पर स्टार्क ने ट्रेविस हेड को बल्लेबाजी किया। फिर, स्टार्क ने पांचवें ओवर में बैक टू बैक गेंदों पर नीतीश कुमार रेंडी और शाहबाज अहमद को आउट कर हैदराबाद को बैकफुट पर धकेल दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने 19.3 ओवर में 160



रन बनाए, जवाब में कोलकाता ने 6.2 ओवर शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। स्टार्क ने (3-34) के अपने स्पेल के साथ क्वालीफायर 1 में अपनी टीम की जीत के हीरो रहे और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। अब कोलकाता चेन्नई में रविवार को फाइनल में क्वालीफायर 2 के विजेता से भिड़ेगा। वॉटसन ने जिओसिनेमा से कहा कि इसने मुझे एमसीजी में विश्व कप 2015 में ब्रैंडन मैकुलम के विकेट की याद दिला दी। स्टार्क हर जगह बस मुख्य बल्लेबाज को टारगेट करते हैं। जब भी टीम को उनकी जरूरत होती है, तो वह हमेशा बड़े मैचों में दमदार प्रदर्शन करते हैं। आईपीएल 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले वॉटसन को लगता है कि स्टार्क ने मुकाबले की शुरुआत होते ही नतीजा कोलकाता के पक्ष में कर दिया।

थम गया दिनेश कार्तिक का सफर आईपीएल से लिया संन्यास?

कोहली ने गले लगाया, धोनी से इस मामले में थे सीनियर

नई दिल्ली, एजेंसी। दिनेश कार्तिक यानी छेके ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास लेने का फैसला किया है। हालांकि दिनेश कार्तिक की ओर से इस बात का ऐलान नहीं हुआ। पर लाइव टीवी प्रसारण के दौरान इस बात की जानकारी दी गई कि दिनेश कार्तिक ने आईपीएल के सफर को विराम दे दिया है। अपने 16 साल के आईपीएल सफर में कार्तिक ने 6 आईपीएल टीमों की ओर से खेला। कार्तिक ने एलिमिनेटर मुकाबले के बाद जिस तरह से टीम के साथियों से मिले और दर्शकों का अभिवादन किया, उससे यह तय हो गया है कि अब कार्तिक के आईपीएल सफर को विराम लग गया है। बुधवार (22 मई) को आरसीबी के आईपीएल 2024 एलिमिनेटर में राजस्थान से हारने के बाद अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने संकेत दिया कि यह उनका आखिरी आईपीएल मैच है।



कार्तिक का 2024 का सफर

कार्तिक ने एक बार फिर फिनिशर की भूमिका निभाते हुए आईपीएल 2024 के 15 मैचों में 326 रन बनाए। कार्तिक ने अपने प्रदर्शन से खुद को टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने की दौड़ में वापस ला दिया था। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने अनुभवी विकेटकीपर के साथ मैदान पर मजाक में कार्तिक से यह भी कहा था कि डीके अभी वर्ल्ड कप खेलना है, यह वीडियो खूब वायरल हुआ था।

कार्तिक का आईपीएल करियर

दिनेश कार्तिक आईपीएल के शुरुआती सीजन से अब तक खेलने वाले खिलाड़ियों में शुमार रहे। उन्होंने 257 मैचों में 22 अर्धशतक लगाकर 4842 रन बनाए। कार्तिक आईपीएल के इतिहास टॉप 10 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। इस दौरान कार्तिक ने 147 कैच और 37 स्ट्रक भी किए।

धोनी से पहले किया था इंटरनेशनल डेब्यू

यहां ध्यान रहे कि कार्तिक का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू एमएस धोनी से पहले हुआ था। दिनेश कार्तिक ने नवंबर 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। वहीं वनडे डेब्यू 5 सितंबर 2004 को इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्डस में किया। वहीं टी20 डेब्यू 1 दिसंबर 2006 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग में किया था।

आईपीएल के कारण डीके को वर्ल्ड कप टीम में मिली जगह

कार्तिक ने आईपीएल में अपनी उम्र को केवल नंबर गेम बनाकर रख दिया था। आरसीबी में शामिल होने के बाद तो डीके अलग ही अंदाज में खेल रहे थे। आरसीबी के साथ आईपीएल 2022 में कार्तिक का अविश्वसनीय प्रदर्शन रहा था। यहां उन्होंने 330 रन 183 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे, जिसके बाद उनका सेलेक्शन टी20आई वर्ल्ड कप की टीम में हुआ।

दिनेश कार्तिक का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

दिनेश ने 26 टेस्ट खेलते हुए 1025 रन बनाए इस दौरान 57 कैच और 6 स्ट्रक भी किए। वहीं 94 वनडे में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने 1752 रन बनाए, इस दौरान उन्होंने 64 कैच और 7 स्ट्रक भी किए। वहीं 60 टी20 मैच खेलते हुए उन्होंने 686 रन बनाए,

आईपीएल में 6 टीमों से खेले कार्तिक

दिनेश कार्तिक ने अपने आईपीएल करियर में छह टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। 2011 में पंजाब जाने से पहले उन्होंने 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ शुरुआत की। 2014 में दिल्ली वापस जाने से पहले उन्होंने अगले दो सीजन मुंबई के साथ बिताए। 2015 में आरसीबी में शामिल किया। इसके बाद चार सीजन बिलाने से पहले वो 2016 और 2017 में गुजरात लायंस के लिए खेले। फिर वो केकेआर टीम में वापस आए, इस टीम का उन्होंने नेतृत्व भी किया। कार्तिक 2022 में आरसीबी में लौटे और फिनिशर की भूमिका को बखूबी निभाया।

भारत के कोच पद के लिए आवेदन नहीं किया, करूंगा भी नहीं: एंडी पलावर

अहमदाबाद, एजेंसी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के मुख्य कोच एंडी पलावर की भारतीय कोच पद के लिए दावेदारी पेश करने की कोई योजना नहीं है। जिम्बाब्वे के इस पूर्व कप्तान ने आईपीएल प्लेऑफ से अपनी टीम के बाहर होने के बाद इसकी पुष्टि की। राहुल द्रविड टी20 विश्व कप के बाद भारत के मुख्य कोच का पद छोड़ देंगे और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने 27 मई तक नए कोच के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पलावर ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, 'मैंने आवेदन नहीं किया है। मैं आवेदन नहीं करूंगा। मैं फिलहाल फेंचाइजी लीग से जुड़कर खुश हूँ। माना जा रहा है कि गौतम गंभीर से संपर्क किया गया है लेकिन ना तो भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और ना ही बीसीसीआई के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सफल कोच रहे पलावर के मार्गदर्शन में 2012 में एलिस्टेयर कुक की अगुआई वाली टीम ने भारत में टेस्ट श्रृंखला जीती थी। पलावर इससे पहले लखनऊ सुपर जाइंट्स के कोच रह चुके हैं और दुनिया भर में कई अन्य फेंचाइजी का भी हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय टीम के लिए साल में 10 महीने काम करने पर इस समय वह विचार नहीं कर रहे।

प्रो हॉकी लीग

भारतीय पुरुष टीम ने अर्जेंटीना को हराया महिला टीम को 5-0 से मिली करारी हार

एंटवर्प (बेल्जियम), एजेंसी। भारतीय महिला हॉकी टीम को एफआईएच प्रो हॉकी लीग में अर्जेंटीना के हाथों 0-5 से करारी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम ने चारों क्वार्टर में गोल खाए। भारतीय पुरुष टीम बुधवार को यहां एफआईएच प्रो हॉकी लीग मैच में निर्धारित समय में 2-2 से बराबरी पर रहने के बाद शूटआउट में अर्जेंटीना को 5-4 से हारने में सफल रही। भारत के लिए मनदीप सिंह (11वें मिनट) और ललित कुमार उपस्थाय ने मैदानी गोल दगे जबकि अर्जेंटीना की ओर से लुकास मार्टिनेज (20वें) और टॉमस डेमेने (60वें) ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल किए। शूटआउट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह ने दो-दो गोल जबकि अभिषेक ने एक

गोल किया। पहले हाफ में भारत और अर्जेंटीना के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। दुनिया की छठे नंबर की भारतीय टीम ने पहले क्वार्टर में दबदबा बनाया, लेकिन उससे एक पायदान निचली रैंकिंग वाली अर्जेंटीना ने अगले 15 मिनट में बेहतर खेल दिखाया। महिला टीम को अर्जेंटीना के हाथों मिली 0-5 से हार-महिला हॉकी टीम को एफआईएच प्रो हॉकी लीग में अर्जेंटीना के हाथों 0-5 से करारी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम ने चारों क्वार्टर में गोल खाए। अर्जेंटीना के लिए जूलिएटा यानकुनास (53, 59), ऑगस्टीना गोरजेल्नी (13), वेलेटीना रापोसो (24), विकटोरिया मिरांडा (41) ने गोल किए।



पॉटिंग ने भारत के मुख्य कोच का प्रस्ताव ठुकराया



नई दिल्ली, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पॉटिंग ने खुलासा किया है कि जल्द ही खाली होने वाले भारत के मुख्य कोच के पद के लिए उनसे संपर्क किया गया था लेकिन उन्होंने इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह अभी उनकी 'जीवनशैली में फिट नहीं बैठता। हाल ही में दिल्ली

कहा- मेरी जीवनशैली में फिट नहीं बैठता

कैप्टेन आईपीएल फेंचाइजी के मुख्य कोच के रूप में सात सत्र पूरे करने वाले पॉटिंग इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंतरिम टी20 कोच रह चुके हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि भारतीय कोच के पद के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से कोई सुझाव आया था या नहीं। पॉटिंग ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से कहा, 'आईपीएल के दौरान कुछ आमने-सामने की बातचीत हुई थी, ताकि पता चल सके कि इस पद में मेरी दिलचस्पी है या नहीं। उन्होंने कहा, 'मैं राष्ट्रीय टीम का सीनियर कोच बनना पसंद करूंगा लेकिन मेरे जीवन में अन्य चीजें हैं और मैं घर पर कुछ समय बिताना चाहता हूँ... हर कोई जानता है कि अगर आप भारतीय टीम के साथ काम करोगे तो आप आईपीएल टीम में शामिल नहीं हो सकते। पॉटिंग ने कहा, 'इसके अलावा राष्ट्रीय मुख्य कोच साल में 10 या 11 महीने की

नौकरी है, और मैं इसे करना चाहता हूँ, यह अभी मेरी जीवनशैली और उन चीजों में फिट नहीं बैठता है जिन्हें मैं वास्तव में करना पसंद करता हूँ। पॉटिंग ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे के साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा की और वह भारत आने के लिए तैयार लग रहा था। उन्होंने कहा, 'मेरे परिवार और मेरे बच्चों ने पिछले पांच सप्ताह आईपीएल में मेरे साथ बिताए हैं और वे हर साल यहां आते हैं और मैंने अपने बेटे को इसके बारे में बताया। पॉटिंग ने कहा, 'मैंने कहा, 'पापा को भारतीय कोच की नौकरी की पेशकश की गई है और उसने कहा, 'बस इसे स्वीकार कर लीजिए पापा, हम अगले कुछ वर्षों के लिए यहां जाना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा, 'वे वहां रहना और भारत में क्रिकेट की संस्कृति को कितना पसंद करते हैं लेकिन अभी यह शायद मेरी जीवनशैली में पूरी तरह से फिट नहीं बैठता।

एथलेटिक्स

तेजस शिरसे ने फिनलैंड में पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया

जिवास्किला (फिनलैंड), एजेंसी। शिरसे ने कोई अंतरराष्ट्रीय पदक नहीं जीता है, लेकिन पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ में शीर्ष भारतीय हैं। उन्होंने पिछले साल फेडरेशन कप, राष्ट्रीय अंतर-राज्य चैंपियनशिप और राष्ट्रीय ओपन में स्वर्ण पदक जीता था। तेजस शिरसे ने बुधवार को यहां 13.41 सेकेंड के समय से विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर स्तर की प्रतियोगिता मोटोनेट जीपी सीरीज में स्वर्ण पदक जीतकर पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। 21 वर्षीय शिरसे ने 2017 में सिद्धांत थिंगाल्या द्वारा बनाये 13.48 सेकेंड के पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उनका पिछला व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 13.56 सेकेंड है जो उन्होंने नौ मई को नीदरलैंड में बनाया था। शिरसे ने कोई अंतरराष्ट्रीय पदक नहीं जीता है, लेकिन पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ में शीर्ष भारतीय हैं। उन्होंने पिछले साल फेडरेशन कप, राष्ट्रीय अंतर-राज्य चैंपियनशिप और राष्ट्रीय ओपन में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने इस साल के फेडरेशन कप में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वह विदेश में ट्रेनिंग और प्रतिस्पर्धा कर रहे थे।



नागल की खास उपलब्धि, विंबलडन के मुख्य दौर में सीधे प्रवेश पाने वाले पांच साल बाद पहले भारतीय



लंदन, एजेंसी। इससे पहले प्रजनेश गुनेश्वरन 2019 में विंबलडन के मुख्य दौर में सीधे खेलने वाले अंतिम भारतीय थे। हालांकि उन्हें पहले दौर में ही हार मिली थी। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल विंबलडन के मुख्य दौर में सीधे प्रवेश पाने वाले पांच साल बाद पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। विश्व नंबर 94 नागल को उनकी रैंकिंग के आधार पर सीधे प्रवेश मिला है। नागल 26 मई से शुरु होने जा रहे फ्रेंच ओपन में भी सीधे मुख्य दौर में खेलने जा रहे हैं। इससे पहले प्रजनेश गुनेश्वरन 2019 में विंबलडन के मुख्य दौर में सीधे खेलने वाले अंतिम भारतीय थे। हालांकि उन्हें पहले दौर में ही हार मिली थी। नागल हाल ही में विश्व रैंकिंग में 80वें स्थान पर पहुंचे थे, जिसके चलते उन्हें फ्रेंच ओपन में सीधे प्रवेश मिला।



हीरो और रोल मॉडल, एक शब्द भी न कहें...

एबी डिविलियर्स ने विराट के आलोचकों को सुनाई खरी छोटी

नई दिल्ली, एजेंसी। सुनील गावस्कर ने आईपीएल 2024 सीजन के शुरुआती चरण के दौरान कम स्ट्राइक-रेट के लिए आरसीबी स्टार विराट कोहली की कड़ी आलोचना की। आरसीबी ने टूर्नामेंट में अपने पहले 8 मैचों में से 7 मैच गंवाए और कोहली उन खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्हें टीम के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि प्रवेश पाने वाले पांच साल बाद पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। विश्व नंबर 94 नागल को उनकी रैंकिंग के आधार पर सीधे प्रवेश मिला है। नागल 26 मई से शुरु होने जा रहे फ्रेंच ओपन में भी सीधे मुख्य दौर में खेलने जा रहे हैं। इससे पहले प्रजनेश गुनेश्वरन 2019 में विंबलडन के मुख्य दौर में सीधे खेलने वाले अंतिम भारतीय थे। हालांकि उन्हें पहले दौर में ही हार मिली थी। नागल हाल ही में विश्व रैंकिंग में 80वें स्थान पर पहुंचे थे, जिसके चलते उन्हें फ्रेंच ओपन में सीधे प्रवेश मिला।

आलोचना पर खतरनाक हो जाते हैं विराट डिविलियर्स ने जियो सिनेमा के कार्यक्रम में कहा, मुझे लगा कि यह बहुत बुरा है कि देश के हीरो और रोल मॉडल जैसे किसी व्यक्ति की इतनी आलोचना हो रही है। लेकिन उनके बारे में मैं निश्चित था और यही बात मैंने अपने शो में भी कही। आपको नहीं पता कि आलोचना होने पर इस व्यक्ति का क्या होता है। मैंने जितने साल उनके खिलाफ खेला है, मैं टीम रूम में खिलाड़ियों से कहता था कि आप मैदान पर विराट से एक शब्द भी न कहें क्योंकि वह मैदान पर आएंगे और अगर आप उन्हें पेशान करने की कोशिश करेंगे तो वह शकत बना देंगे। शायद यह एक वरदान था कि उन्हें थोड़ी-बहुत आलोचना मिली, क्योंकि इस तरह की चीजें उन्हें बहुत प्रेरित करती हैं।

कार्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं माही विज

लागी तुझसे लगन' की 'नकुशा' यानी अभिनेत्री माही विज ने अपने साथ हुई कार्टिंग काउच की घटना को साझा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से अभिनेत्री का रेट कार्ड तैयार किए जाने का प्रस्ताव उन्हें मिला था। 'लागी तुझसे लगन' धारावाहिक से घर-घर पहचान बनाने वाली अभिनेत्री माही विज काफी समय से टीवी की दुनिया से दूर हैं। इस धारावाहिक में उन्होंने 'नकुशा' का किरदार निभाया था, जिसकी दर्शकों ने खूब सराहना की। अभिनेत्री सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। वह लगातार अपनी तस्वीरें और रीलस अपने प्रशंसकों के साथ साझा करती रहती हैं। हाल ही में अभिनेत्री ने एक साक्षात्कार में उनके साथ हुई कार्टिंग काउच की हैरान कर देने वाली घटना का खुलासा किया। यह घटना उनके साथ तब घटित हुई जब वह दिल्ली से मुंबई अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए आई थीं।

फोटो के साथ रेट कार्ड बनाने का दिया प्रस्ताव

माही इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए अपने साथ हुए कार्टिंग काउच की घटना को साझा करती हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास एक व्यक्ति की कॉल आई जो खुद को शूटिंग को-ऑर्डिनेटर होने का दावा कर रहा था। वह उससे मिलने के लिए तैयार हो गईं। अभिनेत्री अपनी बहन के साथ उससे जुहू में मिलने गईं, लेकिन उन्होंने जैसा सोचा था, ऐसा नहीं था। उस व्यक्ति से मिलने के बाद उन्हें एहसास हो गया कि वह ठीक नहीं है। अभिनेत्री ने कहा, 'वो हमें एल्बम में तस्वीरें दिखा रहा था और फिर रेट कार्ड, फिर कहने लगा, 'इधर आपकी तस्वीरें लग जाएंगी और इधर आपका रेट कार्ड बन जाएगा।' मैंने खुद से कहा नकारात्मक नहीं सोचते हैं और उससे पूछा प्रति दिन शूटिंग करोगे उसका रेट कार्ड है। उसने कहा, 'नहीं, नहीं आपको बरूज पर जाओगे।' मैंने कहा, 'प्रस्तुति देने के लिए।' उसने फिर कहा 'नहीं आप समझो ना।'

बचकर निकलीं अभिनेत्री

अभिनेत्री ने बताया कि जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि वहां कुछ ठीक नहीं है और वह गलत आदमी से मिलने आ गई हैं। कार की पिछली सीट पर बैठी उनकी बहन ने उस आदमी के बाल पकड़कर खींच लिए। अभिनेत्री ने बताया कि किसी तरह से वह उस परिस्थिति से बचकर वापस आ गईं।

कौन हैं माही विज?

माही विज एक अभिनेत्री हैं। उनका जन्म दिल्ली में हुआ है। अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए वह 17 साल की उम्र में मुंबई आ गईं। शुरुआत में अभिनेत्री ने तेलुगु मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया। इसके बाद उन्होंने टीवी जगत में अपनी पारी की शुरुआत की। अभिनेत्री ने 'लागी तुझसे लगन' धारावाहिक में 'नकुशा' का किरदार निभाया।



रवीना ने की साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तारीफ

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने हिंदी के अलावा साउथ की कई फिल्मों में भी काम किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने साउथ और बॉलीवुड की वर्किंग स्टाइल पर बात की है। उन्होंने बताया कि साउथ में कम लोगों के साथ अच्छी तरह से शूटिंग होती है जबकि बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग में ऐसा नहीं होता है। रवीना ने इंटरव्यू में साउथ फिल्म तकदीरवाला की शूटिंग का किस्सा सुनाते हुए कहा, मैं और को-स्टार वेंकटेश पांच गानों की शूटिंग के लिए मॉरिशस गए थे। यहाँ हमारे साथ केवल 9 लोगों का बरूगया था। ये देखकर मैं दंग रह गई थी। हमने पांच गाने सिर्फ 9 लोगों के साथ शूट किए जिसमें कोई लाइटमैन नहीं था, ना कोई जनरेटर, न लाइट्स कुछ भी नहीं। उन्होंने दो बेबी लाइट्स और रिफ्लेक्टर्स के साथ वो सॉना शूट किए और तब भी आप गानों की क्रॉलिंग टैकिंग। रवीना ने आगे बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के बारे में कहा, यहाँ इंटरनेशनल आउटडोर शूटिंग पर हमारे साथ करीब 200 लोगों का बरू जाता है जिसको देखकर मैं सोचती हूँ कि इतने सारे लोगों की क्या जरूरत है जब साउथ में 9 लोगों के साथ ही शूटिंग पूरी हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रवीना का कहना है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री कम रिसोर्स और लो बजट में भी बेहतरीन काम करती है जबकि बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता।

तुम जीत के हकदार हो, तुम्हें जीतते हुए देखना चाहती हूँ, सामंथा के क्रिटिक पोस्ट से मची हलचल

सामंथा रथ प्रभु अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रशंसकों के बीच छई रहती हैं। वह कभी अपनी फिल्मों और करियर पर लिखती हैं। कई बार जिंदगी पर लिखती हैं। मगर, आज उन्होंने एक ऐसा पोस्ट साझा किया है कि फैंस के बीच हलचल मच गई है। दरअसल, अभिनेत्री ने एक क्रिटिक पोस्ट लिखा है। इसके बाद यूजर्स तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं।

सामंथा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट साझा किया है। इसमें लिखा है, मैं आपको जीतते हुए देखना चाहती हूँ। पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, जो भी आपका दिल चाहे, आपकी जो भी आकांक्षाएं हों, मैं आपका समर्थन कर रही हूँ। आप जीत के हकदार हैं। हार और जीत को लेकर लिखे गए सामंथा के इस पोस्ट पर यूजर्स हैरान हैं। कोई इसे आइपीएल मैच से जोड़कर देख रहा है तो कोई उनकी निजी जिंदगी से।

विराट कोहली की प्रशंसा है सामंथा

सामंथा के कुछ फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि उनका यह मैसेज विराट कोहली की आइपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के लिए है। सामंथा इस मैसेज के जरिए विराट और उनकी टीम को सपोर्ट कर रही हैं। आरसीबी का मैच 22 मई को राजस्थान रॉयल्स के साथ है। सामंथा पहले भी कई बार विराट कोहली को

अपना समर्थन दे चुकी हैं। पिछले साल स्टा स्पोर्ट्स इंडिया के एक चैट शो में सामंथा ने कहा था, विराट कोहली बहुत प्रेरित करते हैं। खेल के प्रति उनका समर्पण, धैर्य और प्रतिबद्धता दूसरों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपने धैर्य से कई जिंदगीयों में बदलाव किया है। सामंथा ने कहा था, विराट ने जब वापसी की और उसके बाद शतक जड़ा तो मैं रो पड़ी थी।

सामंथा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट साझा किया है।

सिटाडेल सीरीज में आंखी नजर सामंथा के कुछ फैंस इस पोस्ट को उनकी निजी जिंदगी से जोड़कर देख रहे हैं। यूजर्स का का कहना है, सैम ने लाइफ को लेकर कुछ लिखा है और आइपीएल के फैंस ने अपने अनुमान लगाने शुरू कर दिए।



अक्षय ने असिन को लेकर किया खुलासा

● बोले- अभिनेत्री पर जान छिड़कते हैं उनके दुल्हे राजा राहुल

अक्षय कुमार और असिन ने एक साथ फिल्म खिलाड़ी 786 में एक साथ काम किया था। इस फिल्म के सेट से ही असिन की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी और अक्षय कुमार ने दोनों को मिलवाने में अहम योगदान निभाया था।

अक्षय ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने असिन को अपने दोस्त राहुल से मिलवाया था। कुछ साल डेट करने के बाद असिन और राहुल 2016 में शादी के बंधन में बंधे थे।

असिन के पति अक्षय से साझा करते हैं हर खुशी

राखर धवन के शो में अक्षय कुमार ने असिन और राहुल शर्मा के रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा, राहुल असिन और अपनी बेटी से बेहद प्यार करते हैं। राहुल असिन को देवी की तरह मानते हैं। वे उनपर जान छिड़कते हैं। वहीं राहुल शर्मा ने भी अक्षय कुमार के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा था जिसमें उन्होंने बताया था कि अक्षय वे पहले राखर थे जिनको उन्होंने किरदार निभा रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में बताया था। अक्षय कुमार सब छोड़कर सबसे पहले असिन और उनकी बेटी को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे।

KKK 14 में तगड़े स्टंट करती दिखेंगी सुमोना चक्रवर्ती

अभिनेत्री सुमोना चक्रवर्ती की पहचान कॉमेडियन के रूप में बन चुकी है। सुमोना ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। सुमोना ने दिग्गज कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ 'कॉमेडी सर्कस', 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' और 'द कपिल शर्मा शो' में काम किया है। वह कपिल की पार्टनर बनती थीं। दोनों की कॉमेडि टाइमिंग कमाली की है और उनकी कैमेस्ट्री खूब हिट हुई। हालांकि सुमोना इन दिनों कपिल के नेटफिलक्स पर आ रहे शो से गायब हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मार्च के अंत में 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' शुरू

हुआ था। हर शनिवार इसका नया एपिसोड आता है। अब सुमोना ने बातचीत में इस शो को लेकर बात की। जब सुमोना से पूछा गया कि वह इस शो में काम क्यों नहीं कर रही हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। जिस शो का मैं हिस्सा थी, वो दूसरे चैनल पर था और पिछले साल जुलाई में खत्म हो गया था। तब से मैं अपनी जर्नी पर हूँ, अपने काम खुद कर रही हूँ, नेटवर्किंग कर रही हूँ और लोगों से मिल रही हूँ। सालों पहले किए गए कॉमेडी शो के लिए मुझे आज भी फैंस का प्यार मिलता है। सुमोना ने कहा कि

मैं जानती हूँ कि मेरे फैंस मुझे मिस कर रहे हैं, मैंने उनके मैसेज देखे हैं। मैं हर जगह लोगों से मिलती हूँ, जैसे ही आप अपने घरों से निकलते हो तो आपके पड़ोसी बता देते हैं। यही चीज आपको कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करती है। जब मैं पिछले साल लंदन में थी, तो बहुत सारे भारतीयों ने मुझसे कहा था कि उन्हें 'बड़े अच्छे लगते हैं' सीरियल में मेरा काम पसंद आया था। प्यार को आते देखा जाकई अच्छ लगता है, चाहे वह बड़े अच्छे के लिए हो... या कॉमेडी नाइट्स के लिए...।



रोहित शेट्टी के साथ फुल-ऑन एक्शन फिल्म करना चाहती हैं सोनाक्षी

सोनाक्षी सिन्हा के पास कई फिल्ममेकर्स की एक लिस्ट है, जिनके साथ वह काम करना चाहती हैं। एक्ट्रेस का कहना है कि वह राजकुमार हिरानी, अनुराग कश्यप और रोहित शेट्टी के साथ काम करना चाहती हैं। सोनाक्षी ने बात करते हुए बताया कि वह किन-किन के साथ काम करने की खाहिश रखती हैं। उन्होंने कहा, मैं राजकुमार हिरानी सर के साथ काम करना चाहूंगी, क्योंकि वह एक ऐसे फिल्म मेकर हैं, जो ऑडियंस को इमोशन से सीधे कनेक्ट कर पाते हैं। वह सिंपल लेकिन काफी प्रभावशाली फिल्ममेकर हैं और मेरी खाहिश है कि मैं उनके साथ काम करूँ। सोनाक्षी ने साथ ही बताया कि वह एक्शन फिल्म भी करना पसंद करेंगी। उन्होंने कहा, रोहित शेट्टी के साथ मैं एक एक्शन फिल्म करना चाहती हूँ। आशुतोष गोवारिकर, अनुराग कश्यप और फिर अनुराग बसु के साथ मैं एक धमाकेदार फिल्म में काम करना जरूर पसंद करूंगी। मेरी बकेट लिस्ट में अभी भी बहुत सारे फिल्म मेकर हैं। सलमान खान स्टार दबंग से 2010 में करियर की शुरुआत करने के बाद सोनाक्षी ने पिछले 14 साल में प्रभु देवा, विक्रमादित्य मोटवाले और ए.आर. मुग्गादॉस जैसे फिल्म निर्माताओं के साथ काम किया है। उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट में काकुडू शामिल है, जो आदित्य सरपोतदार की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है।

सस्पेंस, रोमांस, हॉरर, थ्रिलर से भरपूर होंगी कार्तिक की आगामी फिल्में



कार्तिक आर्यन उन बॉलीवुड अभिनेताओं में से हैं, जिनकी फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस साल कार्तिक की कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इन फिल्मों में आपको इमोशन, हॉरर, रोमांस, सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलेंगे। इन दिनों कार्तिक आर्यन अपनी आगामी चंद्र चैंपियन को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया है। इस ट्रेलर की जो सबसे खास बात है वो है कार्तिक का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रेलर में कार्तिक का लुक जबरदस्त लग रहा है। बता दें कि कबीर खान निर्देशित फिल्म चंद्र चैंपियन का ट्रेलर 18 मई को लॉन्च कर दिया गया। चंद्र चैंपियन फिल्म को कहानी मुरलीकांत पेटकर के जीवन पर आधारित है। मुरलीकांत पेटकर भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने 50 मीटर फ्रीस्टाइल स्विमिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। मुरलीकांत पेटकर को पद्म श्री भी मिल चुका है।

टेलीविजन एक्टर अनुज अरोड़ा अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म के लिए तैयार

टेलीविजन अभिनेता अनुज अरोड़ा थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री कोई जाए तो ले आए से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी भूमिका विजय के असल जिंदगी में खुद के साथ कनेक्शन के बारे में बात की। बुरे भी हम भले भी हम, बंदिनी जैसे टीवी शो का हिस्सा रह चुके अनुज ने कहा कि यह फिल्म उनके लिए और भी खास है। उनके किरदार का नाम उनकी माँ जैसा है। उन्होंने कहा कि मैं विजय का किरदार निभा रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। खास बात यह है कि फिल्म में मेरा नाम विजय है और यह मेरी माँ का नाम भी है। मैं वास्तव में इसके लिए उत्सुक हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसे लोग खूब पसंद करेंगे। हालांकि अभी तक फिल्म की रिलीज डेट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अभिनेता को उम्मीद है कि यह आले महीने किसी समय रिलीज होगा। उन्होंने आगे बताया कि वह फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने में उन्हें 15 साल लग गए। अपनी फिल्म को रिलीज होते देखा अद्भुत है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जब मुझसे संपर्क किया गया तो यह एक वेब श्रृंखला होने वाली थी, लेकिन शूटिंग के बाद निर्माताओं को यह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे फिल्म बना दिया। मैं इसे बड़े पर्दे पर देkhना चाहता हूँ।

